

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक Physical Activity Trainer

सहायक पुस्तिका

कक्षा 12

2025-26



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक
(PHYSICAL ACTIVITY TRAINER)

Class XII (2025-26)



स्वाध्यायान्मा प्रमदः

State Council of Educational Research & Training, Delhi
Varun Marg, Defence Colony, New Delhi - 110024

ISBN: 978-93-6291-364-7

© राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली
अप्रैल, 2025

मुख्य सलाहकार

डॉ. रीता शर्मा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , दिल्ली

डॉ. नाहर सिंह, संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , दिल्ली

सलाहकार

श्रीमती बिमला कुमारी, डी.डी.ई, वोकेशनल शिक्षा, दिल्ली

श्री राकेश बल, ओ.एस.डी, वोकेशनल ब्रांच, दिल्ली

श्री संजीव कुमार गौड़, ओ.एस.डी, वोकेशनल ब्रांच, दिल्ली

नोडल अधिकारी

श्रीमती रमन अरोड़ा, सहायक प्रोफेसर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , दिल्ली

डॉ. अप्सरा अंसारी, सहायक प्रोफेसर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , दिल्ली

विषय समन्वयक

डॉ. दीपिका मल्होत्रा, सहायक प्रोफेसर, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजेंद्र नगर, दिल्ली

संपादक मंडल

डॉ. दीपिका मल्होत्रा, सहायक प्रोफेसर, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजेंद्र नगर, दिल्ली

डॉ. डी. एस. यादव, सेवानिवृत्त प्राचार्य, डाइट (एससीईआरटी), दिल्ली

लेखक समूह

डॉ. दीपिका मल्होत्रा, सहायक प्रोफेसर, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजेंद्र नगर, दिल्ली

डॉ. डी. एस. यादव, सेवानिवृत्त प्राचार्य, डाइट (एससीईआरटी), दिल्ली

डॉ. उमेश कुमार अहलावत, प्रवक्ता, (शारीरिक शिक्षा), दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली

डॉ. सचिन कुमार, प्रवक्ता, (शारीरिक शिक्षा), सर्वोदय सह-शिक्षा विद्यालय, कुंवर सिंह नगर

श्री राकेश कुमार यादव, शारीरिक शिक्षा पर्यवेक्षक, क्षेत्र-29., उप- शिक्षा निदेशक, नई दिल्ली

श्रीमती सुनीता शारदा, प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा), रायसीना बंगाली विद्यालय, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली

श्री विकास सिंह, प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा), सर्वोदय बाल विद्यालय, चाँद नगर

आभार

डॉ. पवन कुमार, सहायक प्रोफेसर पी जी डी ए वी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी

प्रकाशन अधिकारी

डॉ. मुकेश यादव, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , नई दिल्ली

प्रकाशन दल

श्री दिनेश कुमार शर्मा, ए.एस.ओ., राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , नई दिल्ली

सुश्री फ़ौजिया, (बी.आर.पी.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् , नई दिल्ली

प्रकाशित : राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली

मुद्रित : राज प्रिंटर्स, ए-9, सेक्टर बी-2, ट्रॉनिका सिटी, लोनी, गाज़ियाबाद (यू.पी.)

Dr. Rita Sharma
Director SCERT



स्वाध्यायान्मा प्रमदः

**STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH and TRAINING**

(An autonomous Organisation of GNCT of Delhi)

Varun Marg, Defence Colony, New Delhi-110024

Tel.: +91-11-24331356

E-mail : dir12scert@gmail.com

Date : 29/5/2025

D.O. No. : E/10(U)/DP/1/AM/Con/37

संदेश

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही जीवनोपयोगी और रोजगारोन्मुख कौशलों से जोड़ा जा सके। यह नीति ज्ञान और कौशल के समन्वय से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), दिल्ली द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक विषयों जैसे कि ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, रोजगार कौशल, वित्तीय बाजार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पाद, स्वास्थ्य देखभाल, विपणन, शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक, रिटेल/खुदरा तथा पर्यटन के लिए सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है।

इन विषयों की सहायक सामग्री इस प्रकार तैयार की गई है कि वह विद्यार्थियों को विषय की मूल अवधारणाओं को समझने, व्यावहारिक रूप से लागू करने और 21वीं सदी के आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायता करे। इसमें शिक्षकों के लिए उपयोगी शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, मूल्यांकन सुझाव और केस स्टडी जैसे घटकों को शामिल किया गया है, जो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं।

आशा है कि यह सहायक सामग्री शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

रीता शर्मा

(डॉ. रीता शर्मा)

निदेशक



Dr. Nahar Singh
Joint Director (Academic)

**State Council of Educational
Research and Training**

(An autonomous Organisation of GNCT of Delhi)

Tel. : +91-11-24336818, 24331355, Fax : +91-11-24332426

Tel.: +91-11-24331355, Fax : +91-11-24332426

E-mail : jdscertdelhi@gmail.com

Date : 26/05/2025

D.O. No. : F.11(2)JDB/ACAD/Misc/SCERT/2025-26/
404

संदेश

व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान युग की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है, जो विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान देती है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी सोच को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है, जो शिक्षा को समग्रता प्रदान करती है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली द्वारा व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार की गई यह सहायक सामग्री शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए उपयोगी संसाधन है। इसमें पाठ्यवस्तु को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को विषयों की गहरी समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। यह सामग्री न केवल सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाएगी, बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास और कौशल विकसित करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

यह सामग्री विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक दिशा-निर्देशक की तरह कार्य करेगी, जिससे वे विषय को वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ एवं अनुभव आधारित बना सकें।

(डॉ. नाहर सिंह)
संयुक्त निदेशक

आमुख

बच्चों के समग्र विकास में शारीरिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये गतिविधियाँ न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देती हैं। नियमित शारीरिक अभ्यास से हड्डियाँ मजबूत, मांसपेशियाँ और हृदय सक्षम बनते हैं, जिससे मोटापे जैसी समस्याओं से बचाव होता है। मानसिक रूप से, ये गतिविधियाँ बच्चों का ध्यान केंद्रित करने, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियाँ आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि बच्चे नई चुनौतियों को पार कर नई क्षमताओं का विकास करते हैं। टीम-आधारित खेलों से उनमें सहयोग, सामंजस्य और नेतृत्व जैसे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। इसके साथ ही, शारीरिक गतिविधियाँ बच्चों के तनाव को कम कर उन्हें खुश और संतुलित बनाए रखने में मदद करती हैं।

प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा सहायक का महत्व अत्यधिक होता है। ये सहायक बच्चों में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने, मोटर कौशल को सुधारने और स्वस्थ जीवनशैली की महत्ता समझाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस सहायक सामग्री का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा सहायकों को उन विविध गतिविधियों से परिचित कराना है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होती हैं। साथ ही, यह सहायक सामग्री बताती है कि शारीरिक शिक्षा किस प्रकार टीमवर्क, अनुशासन और नेतृत्व जैसे कौशल विकसित करती है और स्पोर्ट्स सेक्टर के विस्तार में कैसे योगदान देती है। एक सकारात्मक और प्रेरक वातावरण में, शारीरिक शिक्षा सहायक बच्चों को सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह सहायक सामग्री, प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा सहायकों को बच्चों में जीवनभर की स्वास्थ्य और फिटनेस आदतों की नींव रखने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायक है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य और समाज के प्रति योगदान सुनिश्चित करना इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य है।

डॉ दीपिका मल्होत्रा
संपादक व विषय समन्वयक

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
इकाई (1): शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स सेक्टर का अवलोकन	01
परिचय (Introduction)	01
शारीरिक शिक्षा सहायक का कार्य विवरण (Job Profile of Physical Education Assistant)	02
शारीरिक शिक्षा सहायक की व्यावसायिक संभावनाएँ (Career Opportunities of a Physical Education Assistant)	04
(1) शारीरिक शिक्षा शिक्षण (Physical Education Teaching)	05
(2) कोचिंग (Coaching)	0505
(3) खेल प्रबंधन (Sports Management)	06
(4) फिटनेस सेक्टर (Fitness Sector)	06
(5) उपकरण प्रबंधक (Equipment Managers)	06
(6) खेल पत्रकारिता (Sports Journalism)	06
(7) फोटोग्राफी (Photography)	07
(8) खेल चिकित्सा विज्ञान (Sports Medicine)	07
(9) खेल मनोचिकित्सक (Sports Psychologist)	07
(10) खेल पोषण विशेषज्ञ (Sports Nutritionist)	08
शारीरिक गतिविधि, गेम, स्पोर्ट्स और मनोरंजन में भिन्नता (Differentiate Physical Activity, Games, Sports and Recreation)	08
परिचय (Introduction)	08
शारीरिक गतिविधि (Physical Activity)	08
गेम (Games)	09
स्पोर्ट्स (Sports)	10
मनोरंजन (Recreation)	11
मनोरंजक खेल (Recreation Games)	12
खेलों में जीवन कौशल का महत्व (Importance of life Skills in Sports)	14
जीवन कौशल (Life skills)	14
असफलताओं से निपटना सीखें (Learn on how to deal with Failure)	16
कठिन परिश्रम का महत्व (Importance of Working Hard)	16
स्पोर्ट्स सिखाता है कि टीम का सदस्य कैसे बने (Sports Will Teach How to Be a Team Member)	16
त्याग करना सीखना (Learning How to Make Sacrifices)	17
अनुशासन सीखना (Learning Discipline)	17

विवरण	पृष्ठ संख्या
समय प्रबंधन (Time Management)	17
इकाई (2): विद्यार्थियों का आकलन	18
आकलन का अर्थ (Meaning of Assessment)	19
आकलन की परिभाषा (Definition of Assessment)	19
आकलन के प्रकार (Types of Assessment)	20
1. स्व-आकलन (Self-Assessment)	20
2. सहपाठी आकलन (Peer Assessment)	21
3. शिक्षक का अवलोकन (Teacher Observation)	22
4. गृहकार्य (Homework)	24
आकलन को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Influencing Assessment)	24
1. शारीरिक कारक (Physical Factors)	24
2. विद्यालय संबंधी कारक (School Factors)	25
3. शिक्षक संबंधी कारक (Teacher Factors)	27
आकलन उपकरण (Assessment Tools)	27
1. चेकलिस्ट (Checklist)	27
2. रूब्रिक (Rubric)	28
3. मानक (Benchmark)	29
मूल्यांकन के प्रकार (Types of Evaluation)	30
1. रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation)	30
2. समग्र मूल्यांकन (Summative Evaluation)	31
3. निदानात्मक मूल्यांकन (Diagnostic Evaluation)	33
आकलन (Assessment) और मूल्यांकन (Evaluation) के बीच अंतर	34
गुणात्मक आकलन का अर्थ (Meaning of Qualitative Assessment)	34
गुणात्मक आकलन के चरण (Steps in Qualitative Assessment)	35
मात्रात्मक आकलन का अर्थ (Meaning of Quantitative Assessment)	37
मात्रात्मक आकलन के चरण (Steps in Quantitative Assessment)	40
शिक्षण प्रक्रिया के तत्व (Elements of teaching process)	41
अविरत मूल्यांकन (Ongoing evaluation)	42
उच्च गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख सफल कारक (Key success factors for imparting high quality Physical Education)	44

विवरण	पृष्ठ संख्या
मूल्यांकन योजना का आयोजन (Organizing an Evaluation Plan)	46
अभिभावक-शिक्षक बैठक (Parent-Teacher Meeting)	48
अभिभावक-शिक्षक बैठक का प्रबंधन (Managing Parent-Teacher meeting)	50
आकलन के बाद अभिभावकों से संवाद (Interaction with parents post assessments)	52
प्रदर्शन मूल्यांकन का स्पष्टीकरण (Explanation of performance evaluation)	53
विशेष ध्यान देने योग्य शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए कदम (Steps to improve performance of slow learners)	55
इकाई (3): आपातकालीन प्रबंधन	57
आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response)	57
आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता और महत्व (Need and Importance of Emergency Response)	58
विभिन्न परिस्थितियों और चोटों के उदाहरण (Examples of various conditions and injuries)	59
प्राथमिक चिकित्सा- उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत (First Aid - Purpose and basic principles)	64
प्राथमिक चिकित्सा में डी.आर.ए.बी.सी. (D.R.A.B.C.)	64
खेलों में लगने वाली सामान्य चोटें (Basic Sports Injuries)	65
प्राथमिक चिकित्सा किट की अवधारणा (Concept of First Aid Kit)	67
सुरक्षा के लिए क्षेत्र निरीक्षण (Area inspection for safety)	69
प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रियाकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व (Role and responsibilities of first responder)	70
प्राथमिक चिकित्सा के लिए समान अवसर (Equal opportunities)	72
इकाई (4): खेल क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता	73
परिचय (Introduction)	73
खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का रखरखाव (Maintenance of health and hygiene of players)	74
सामान्य स्वच्छता और सफाई नियम (General Hygiene and Sanitation Rule)	75
स्वच्छता संबंधी सुझाव (Hygiene Tips)	76
खेल सुविधाओं और खेलकूद परिधान का निरीक्षण और रखरखाव (Inspection and maintenance of sports facilities and sports apparel)	79
खेल सुविधाओं और खेलकूद परिधान का निरीक्षण (Inspection of Sports Facilities and Sports Kit)	80
खेल क्षेत्र में स्वच्छता का रखरखाव (Maintenance of Hygiene in Play Area)	81

शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स सेक्टर का अवलोकन

अध्याय

1



सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome):

शारीरिक शिक्षा सहायक की नौकरी प्रोफाइल और कैरियर के अवसरों का विवरण करता है ।

शारीरिक गतिविधि, गेम, स्पोर्ट्स और मनोरंजन के बीच अंतर करते है।

खेल में जीवन कौशल के महत्व का वर्णन करता है ।

इकाई (1): शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स सेक्टर का अवलोकन

परिचय (Introduction)

शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स सेक्टर मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स सेक्टर के अन्य आयामों के साथ समान महत्व प्राप्त किया है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्रिय और फिट बनाने के साथ उसे अनुशासन,


सहयोग और नेतृत्व जैसे जीवन कौशल सिखाना भी है। यह एक ऐसा माध्यम है, जो छात्रों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों को समझने और उन्हें निभाने में मदद करता है। इसके माध्यम से छात्रों में सकारात्मक जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ आदतों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। स्पोर्ट्स सेक्टर न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को निखारता है, तथा समाज में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सहनशीलता के गुण भी स्थापित करता है। खेल और प्रतियोगिताएँ लोगों को शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। यह क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, तथा इसे एक व्यवसाय विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। शारीरिक शिक्षा और खेल का संयुक्त प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है; यह समाज और राष्ट्र को भी सशक्त बनाता है। स्वस्थ नागरिक एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव होते हैं और इस दृष्टिकोण से आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स सेक्टर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।



शारीरिक शिक्षा सहायक का कार्य विवरण (Job Profile of Physical Education Assistant)

शारीरिक शिक्षा सहायक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह भूमिका न केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और विभिन्न खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में भी सहायक है। इस पद पर

कार्यरत व्यक्ति सहायक शारीरिक शिक्षा के रूप में कार्य करता है और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होता है।



शारीरिक शिक्षा सहायक का कार्य क्षेत्र व्यापक है, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। आइए शारीरिक शिक्षा सहायक के कार्यों को विस्तार से समझते हैं:

* **कक्षाओं और गतिविधियों की तैयारी (Preparing for classes and activities)**

शारीरिक शिक्षा सहायक का एक मुख्य कार्य खेल सामग्री और उपकरणों को तैयार करना होता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी उपकरण सही स्थिति में हों और समय पर उपलब्ध हों।

* **शारीरिक प्रशिक्षण में सहायता (Assistance in physical training)**

शारीरिक प्रशिक्षण सत्रों के दौरान शारीरिक शिक्षा सहायक, शारीरिक प्रशिक्षक को सहायता प्रदान करता है। इसमें बच्चों को गतिविधियों के सही तरीके समझाना, उन्हें उचित मार्गदर्शन देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

* **खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन (Organizing sports competitions)**

स्कूल में आयोजित होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और वार्षिक खेल दिवस की तैयारी में शारीरिक शिक्षा सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्यक्रम की योजना बनाने, मैदान तैयार

करने और बच्चों को उनके खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

*** प्रगति का मूल्यांकन (Evaluating progress)**

शारीरिक शिक्षा सहायक शिक्षक की देखरेख में बच्चों की शारीरिक पुष्टि और खेलों में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसके लिए वह उनकी शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल और सहयोगात्मक व्यवहार का निरीक्षण करता है।

*** अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना (Ensuring discipline and safety)**

शारीरिक शिक्षा सहायक यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे गतिविधियों के दौरान अनुशासन बनाए रखें और किसी भी संभावित चोट या दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करें।

*** प्रेरणा और परामर्श (Motivation and Mentoring)**

शारीरिक शिक्षा सहायक बच्चों को शारीरिक गतिविधियों और खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। वह उन्हें खेल के महत्व और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक करता है।

शारीरिक शिक्षा सहायक बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह पद न केवल उनमें स्वस्थ जीवनशैली का विकास करता है, बल्कि उन्हें जीवन में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास जैसे गुण सिखाने में भी सहायक होता है। शारीरिक शिक्षा सहायक एक मार्गदर्शक के रूप में उभरता है।

शारीरिक शिक्षा सहायक की व्यावसायिक संभावनाएँ (Career Opportunities of a Physical Education Assistant)

शारीरिक शिक्षा सहायक के रूप में व्यवसाय उन व्यक्तियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है जो स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के प्रति उत्साही हैं और इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यह पद शारीरिक गतिविधियों तथा खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षण और नेतृत्व कौशल को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जागरूकता और शारीरिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए, शारीरिक शिक्षा सहायकों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है।

शारीरिक शिक्षा सहायक के रूप में कार्य करने के बाद, व्यक्ति के लिए कई व्यवसाय की संभावनाएँ खुलती हैं, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव पर निर्भर करती हैं।

(1) शारीरिक शिक्षा शिक्षण (Physical Education Teaching)

शारीरिक शिक्षा सहायक के रूप में अनुभव प्राप्त करने के उपरांत, व्यक्ति शारीरिक शिक्षा शिक्षक बनने के लिए योग्य हो सकता है। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता पूरी करनी होती है। इस भूमिका में वह बच्चों को शारीरिक शिक्षा का गहन ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।



(2) कोचिंग (Coaching)

शारीरिक शिक्षा सहायक अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर खेल प्रशिक्षक (कोच) के रूप में भी काम



कर सकता है। यह भूमिका विभिन्न खेलों में तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास की आवश्यकता को पूरा करती है। कोचिंग के क्षेत्र में व्यवसाय स्कूली स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है।

(3) खेल प्रबंधन (Sports Management)

शारीरिक शिक्षा सहायक खेल प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय बना सकता है। खेल आयोजनों, टूर्नामेंट्स और प्रतियोगिताओं के प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यह क्षेत्र संगठित और कुशल व्यक्तियों के लिए कई अवसर प्रदान करता है।




(4) फिटनेस सेक्टर (Fitness Sector)

आज के समय में फिटनेस एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। शारीरिक शिक्षा सहायक फिटनेस ट्रेनर के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे सकता है। यह व्यवसाय जिम, योग स्टूडियो, फिटनेस क्लब, और व्यक्तिगत ट्रेनिंग सत्रों में अवसर प्रदान करता है।




(5) उपकरण प्रबंधक (Equipment Managers)

खेलों में उपकरणों का प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शारीरिक शिक्षा सहायक खेल उपकरणों के प्रबंधक के रूप में भी काम कर सकता है। इस भूमिका में खेल आयोजनों के लिए आवश्यक उपकरणों की देखभाल और उनकी व्यवस्था करना शामिल है।




(6) खेल पत्रकारिता (Sports Journalism)



खेल पत्रकारिता एक रोमांचक और प्रभावशाली क्षेत्र है, जहाँ शारीरिक शिक्षा सहायक खेलों से जुड़ी घटनाओं, मैचों और खिलाड़ियों की रिपोर्टिंग कर सकता है। यह व्यवसाय मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर काम करने के अवसर प्रदान करता है।

(7) फोटोग्राफी (Photography)

खेलों और शारीरिक गतिविधियों के दौरान फोटोग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा सहायक खेल फोटोग्राफर के रूप में कार्य कर सकता है, जो खेलों की घटनाओं, खिलाड़ियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं को कैमरे में कैद करता है।



(8) खेल चिकित्सा विज्ञान (Sports Medicine)

शारीरिक शिक्षा सहायक खेल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी करियर बना सकता है। इसमें खेल के दौरान होने वाली चोटों का इलाज, पुनर्वास और शारीरिक स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस व्यवसाय में कार्य करने के लिए चिकित्सा और शारीरिक चिकित्सा में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।



(9) खेल मनोचिकित्सक (Sports Psychologist)

शारीरिक शिक्षा सहायक खेल मनोचिकित्सक के रूप में भी काम कर सकता है, जो खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यह व्यवसाय मानसिक रणनीतियों, तनाव प्रबंधन और मानसिक प्रदर्शन में सुधार के लिए उपयुक्त है।



(10) खेल पोषण विशेषज्ञ (Sports Nutritionist)

शारीरिक शिक्षा सहायक खेल पोषण विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर सकता है। इस भूमिका में वह खिलाड़ियों को सही आहार और पोषण के बारे में मार्गदर्शन करता है ताकि वे अपने शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकें। यह व्यवसाय खिलाड़ियों की सेहत और प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।

शारीरिक शिक्षा सहायक के रूप में व्यवसाय न केवल व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह समाज के लिए योगदान करने का एक सशक्त माध्यम भी है। यह क्षेत्र हमेशा नई चुनौतियों और अवसरों से भरा रहता है, जिससे व्यक्ति को न केवल एक पेशेवर के रूप में बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में भी उभरने का अवसर मिलता है। इस क्षेत्र में समर्पण, परिश्रम और दृढ़ता के साथ असीम संभावनाएँ हैं।



शारीरिक गतिविधि, गेम, स्पोर्ट्स और मनोरंजन में भिन्नता (Differentiate Physical Activity, Games, Sports and Recreation)

परिचय (Introduction)

मनुष्य का जीवन शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का एक संगठित ताना-बाना है। इनमें से प्रत्येक गतिविधि का एक विशेष उद्देश्य और प्रभाव होता है। शारीरिक गतिविधि हमारे शरीर के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है, जबकि गेम और स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और टीम भावना को विकसित करने के साधन हैं। इसके विपरीत, मनोरंजन, मानसिक और शारीरिक नवीनीकृत करने का एक माध्यम है, जो हमें जीवन के तनावों से मुक्त करता है। इन सभी पहलुओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये न केवल हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि हमारी सोच, स्वास्थ्य, और सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में हम शारीरिक गतिविधि, गेम, स्पोर्ट्स और मनोरंजन के बीच के सूक्ष्म अंतर को गहराई से समझेंगे।

शारीरिक गतिविधि (Physical Activity)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) शारीरिक गतिविधि को कंकाल की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किसी भी शारीरिक गति के रूप में परिभाषित करता है जिसके लिए ऊर्जा व्यय की आवश्यकता होती है। यह गतिविधियाँ शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। शारीरिक गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह चलना हो, दौड़ना, तैरना, या दैनिक गतिविधियाँ।

शारीरिक गतिविधि के दो मुख्य प्रकार होते हैं: संगठित शारीरिक गतिविधियाँ और असंगठित शारीरिक गतिविधियाँ। संगठित शारीरिक गतिविधियाँ जैसे जिम में कसरत, एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती हैं, जबकि असंगठित शारीरिक गतिविधियाँ जैसे ताजे हवा में चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकती हैं।

यह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और समग्र जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डालती है। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल मांसपेशियों को सबल/सक्षम बनाती है, बल्कि हृदय, श्वसन तंत्र और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाती है। यह तनाव,

चिंता और अवसाद के स्तर को भी कम करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति का समग्र कल्याण बढ़ता है।



गेम (Games)

गेम संरचित गतिविधियाँ होती हैं, जो नियमों और उद्देश्यों के आधार पर खेली जाती हैं जैसे मनोरंजक गेम। गेम मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गेम का उद्देश्य शारीरिक फिटनेस का विकास, टीम भावना, अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देना होता है।

गेम का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत गेम और टीम गेम। व्यक्तिगत गेम में खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, जैसे कि टेनिस, एथलेटिक्स या बैडमिंटन, जबकि टीम गेम में कई खिलाड़ी मिलकर एक लक्ष्य की ओर काम करते हैं, जैसे पारंपरिक गेम, क्षेत्रीय गेम, एव फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि को अपने स्वरूपानुसार खेलना।

गेम न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। खिलाड़ी के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और उसे जीत-हार के मूल्य का ज्ञान होता है। गेम बच्चों में टीमवर्क और नेतृत्व कौशल को बढ़ाते हैं, और यह उन्हें अनुशासन, समय प्रबंधन, और निर्णय लेने की क्षमता सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त, गेम सामाजिक मेलजोल और दोस्ती का भी माध्यम होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को दूसरों के साथ सहयोग करने और एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करते हैं।

गेम का महत्व केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी सशक्त बनाता है। यही कारण है कि गेम जीवन में आनंद और समृद्धि लाने के साथ-साथ सफलता और खुशी की कुंजी बनते हैं।

स्पोर्ट्स (Sports)

स्पोर्ट्स एक व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धी गतिविधि है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। ये स्पोर्ट्स संस्थागत नियमों और शर्तों के अंतर्गत आयोजित होते हैं, और इनमें व्यक्तिगत या टीम के स्तर पर प्रतिस्पर्धा होती है। स्पोर्ट्स का उद्देश्य केवल शारीरिक क्षमता का परीक्षण नहीं होता, इसमें खिलाड़ियों के मानसिक कौशल, रणनीतिक सोच और सहनशक्ति की भी परीक्षा ली जाती है।



स्पोर्ट्स की दुनिया बहुत विस्तृत है, जिसमें विभिन्न खेलों का समावेश होता है, जैसे एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, और टेनिस। इन खेलों में प्रतिस्पर्धा का स्तर उच्च होता है, और खिलाड़ी इन खेलों को उच्चतम शारीरिक फिटनेस और मानसिक तत्परता के साथ खेलते हैं। स्पोर्ट्स को पेशेवर स्तर पर भी खेला जाता है, जहाँ खिलाड़ी को विशेष प्रशिक्षण और तैयारी की आवश्यकता होती है।

स्पोर्ट्स न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और साहस को भी विकसित करते हैं। इन स्पोर्ट्स के माध्यम से खिलाड़ी टीम भावना, नेतृत्व कौशल, और समय प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण जीवन क्षमताओं को भी सीखते हैं। स्पोर्ट्स में भाग लेने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है, क्योंकि यहां जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति में पराजय को स्वीकारने और संघर्ष करने की शक्ति विकसित होती है।

एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान केवल उसकी शारीरिक शक्ति से नहीं होती, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और खेल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। स्पोर्ट्स समाज में एकता और सहयोग का संदेश देते हैं, और इनका प्रभाव खेल कूद की दुनिया से बाहर भी हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देता है। इस प्रकार, स्पोर्ट्स केवल एक प्रतिस्पर्धी गतिविधि नहीं, बल्कि एक जीवनदृष्टि है, जो जीवन को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाती है।

मनोरंजन (Recreation)

मनोरंजन मानव जीवन में आनंद और ताजगी लाने के लिए आवश्यक है, जो शारीरिक और मानसिक विश्राम का माध्यम है। यह वह गतिविधियाँ हैं जो व्यक्ति को आराम, खुशी और मानसिक शांति प्रदान करती हैं। मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य तनाव को कम करना, जीवन के कठिन संघर्षों से निजात दिलाना, और मन को प्रसन्न और ऊर्जावान रखना है। यह किसी भी रूप में हो सकता है – अकेले किया गया कार्य या समूह में की गई कोई सामूहिक गतिविधि, जो ताजगी और सकारात्मकता का अहसास कराती हो।



मनोरंजन के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे संगीत सुनना, नृत्य करना, फिल्म देखना, यात्रा करना, चित्रकला, या पुस्तकें पढ़ना। इनमें से प्रत्येक गतिविधि व्यक्ति को एक मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है, जो जीवन में समग्र संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मनोरंजन के दौरान व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है, बल्कि यह मानसिक रूप से भी उसे तरोताजा कर देता है, जिससे वह आगामी चुनौतियों के लिए तैयार होता है।

मनोरंजन का महत्व केवल तनाव को कम करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी सुधार लाता है। यह दोस्ती, मेल-जोल और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का एक माध्यम बनता है। जब लोग एक साथ मिलकर मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो यह सहयोग, समझदारी और सामूहिक खुशियों का अहसास कराता है।

आजकल तनावपूर्ण जीवन में मनोरंजन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यह हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यही कारण है कि मनोरंजन के विभिन्न रूपों का जीवन में समावेश हमें खुशहाल बनाता है तथा यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है।

मनोरंजक खेल (Recreational Games)

मनोरंजनक खेल वे गतिविधियाँ हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी प्रदान करने के साथ-साथ आनंद और शांति का अनुभव कराती हैं। इन खेलों का उद्देश्य केवल शारीरिक फिटनेस या प्रतिस्पर्धा नहीं होता, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव होता है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति आपसी समझ, सहयोग और खुशी का आनंद लेते हैं। मनोरंजक खेलों में किसी प्रकार की उच्च प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि ये खेल तनाव मुक्त होते हैं और आरामदायक माहौल में खेले जाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक पुनर्निर्माण होता है।

मनोरंजक खेलों के उदाहरणों में लूडो, कैरम, घेर-घेर, दौड़, और पजल जैसी हल्की-फुल्की गतिविधियाँ शामिल हैं। ये खेल मुख्यतः परिवार, मित्रों या समूहों में खेले जाते हैं, और इनका उद्देश्य सिर्फ समय बिताना तथा आपस में अच्छे संबंध बनाना होता है। इन खेलों में जीत या हार की कोई गंभीर भावना नहीं होती, बल्कि आनंद और सामूहिकता की भावना प्रधान होती है।



मनोरंजन खेलों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये न केवल तनाव को कम करते हैं, बल्कि व्यक्ति के अंदर सहयोग, सहनशीलता और धैर्य जैसे गुण भी विकसित करते हैं। मनोरंजक खेलों में मानसिक सजगता और शारीरिक क्रियावली का अच्छा संतुलन होता है, जबकि कैरम और लूडो जैसी बोर्ड गेम्स में सामूहिक निर्णय और रणनीति की आवश्यकता होती है।

इन खेलों में भाग लेने से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूती मिलती है, क्योंकि ये सामान्य बातचीत और मेलजोल का माध्यम बनते हैं। जब हम ऐसे खेलों में भाग लेते हैं, तो हमें न केवल शारीरिक और मानसिक विश्राम मिलता है, बल्कि हम आपस में अच्छी यादें और खुशियाँ भी बनाते हैं।

इस प्रकार, मनोरंजक खेल जीवन में खुशी और संतुलन का अहसास कराते हैं, जिससे हम न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी सकारात्मक रहते हैं।

अवधारणा (Concept)	विवरण (Description)	मुख्य उद्देश्य (Main Objectives)	प्रकार (Types)
शारीरिक गतिविधि (Physical Activity)	शारीरिक प्रयास की किसी भी प्रकार की क्रिया, जैसे चलना, दौड़ना, घर के काम करना।	शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य को बनाए रखना	असंगठित और व्यक्तिगत
गेम (Game)	एक संरचित और प्रतिस्पर्धी गतिविधि जिसमें स्वरचित नियम और उद्देश्य होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी अपने स्वरूपानुसार खेलना आदि।	शारीरिक और मानसिक कौशल का विकास, प्रतिस्पर्धा	व्यक्तिगत या टीम खेल
स्पोर्ट्स (Sports)	उच्च प्रतिस्पर्धा और पेशेवर स्तर पर संस्थागत नियमोंनुसार खेले जाने वाले व्यवस्थित कौशलपूर्ण स्पोर्ट्स, जिसमें शारीरिक, मानसिक और रणनीतियों का परीक्षण होता है।	शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति का परीक्षण	प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवस्थित एवं संस्थागत नियमानुसार
मनोरंजन (Recreation)	वह गतिविधियाँ जो शारीरिक और मानसिक विश्राम, खुशी और शांति प्रदान करती हैं, जैसे लूडो, कैरम, फिल्म देखना।	मानसिक विश्राम और आनंद प्राप्त करना	गैर-प्रतिस्पर्धात्मक और आरामदायक

निष्कर्ष (Conclusion): ये सभी अवधारणाएँ अलग-अलग उद्देश्य और प्रभाव रखती हैं, लेकिन जीवन में सभी का समावेश व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संतुलित और स्वस्थ बनाता है।

खेलों में जीवन कौशल का महत्व (Importance of life Skills in Sports)

खेल मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी सहायक होता है। खेलों के माध्यम से जीवन कौशल विकसित करना आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये कौशल न केवल खेल के मैदान तक सीमित रहते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता का आधार बनते हैं।

जीवन कौशल (Life skills)

जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं, जो व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी रूप से निर्णय लेने, समस्याओं को सुलझाने और अन्य लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सक्षम बनाती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जीवन कौशल की परिभाषा है:

अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएं, जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

यह परिभाषा उन कौशलों पर जोर देती है जो व्यक्तियों को चुनौतियों का रचनात्मक तरीके से सामना करने, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करने में मदद करते हैं। जीवन कौशल में निर्णय लेना, समस्या समाधान, संवाद कौशल, आत्म-जागरूकता और तनाव से निपटने की रणनीतियाँ शामिल हैं।



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जीवन कौशल (Life Skills) मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। इन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

क्र.सं. S.No.	जीवन कौशल (Life Skills)	परिभाषा (Definition)
1	आत्म-जागरूकता (Self-Awareness)	अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और अपनी सामर्थ्य व कमजोरियों की पहचान करने की योग्यता।
2	तदानुभूति (Empathy)	दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझने और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की योग्यता।
3	निर्णय लेने की योग्यता (Decision-Making)	किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने और उसके परिणामों को समझने की योग्यता।
4	समस्या-समाधान (Problem-Solving)	जीवन में आने वाली समस्याओं का रचनात्मक और प्रभावी समाधान निकालने की योग्यता।
5	रचनात्मक सोच (Creative Thinking)	नए और नवोन्मेषी तरीकों से समस्याओं को हल करने और विचार प्रस्तुत करने की योग्यता।
6	आलोचनात्मक/तार्किक चिन्तन (Critical Thinking)	स्थितियों, विचारों और सूचनाओं का विश्लेषण करने और उनमें सही-गलत की पहचान करने की योग्यता।
7	संचार कौशल (Effective Communication)	अपनी बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने और दूसरों को समझने की योग्यता।
8	अंतर-व्यक्तिगत संबंध कौशल (Interpersonal Relationship Skills)	दूसरों के साथ स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाए रखने की योग्यता।
9	भावनात्मक नियंत्रण (Coping with Emotions)	अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें नियंत्रित करने की योग्यता।
10	तनाव प्रबंधन (Coping with Stress)	तनाव को पहचानने, उसका प्रबंधन करने और जीवन में शांति बनाए रखने की योग्यता।

स्पोर्ट्स, जीवन कौशल को विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब खिलाड़ी मैदान में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सजग व सबल बनना पड़ता है। यह अनुभव उन्हें आत्मविश्वास और सामर्थ्य का एहसास कराता है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि

हमारे व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में भी सहायक होते हैं। खेल जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोगी जीवन कौशल सिखाते हैं। यहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि खेलों से हम असफलताओं से निपटना, कठिन परिश्रम का महत्व, टीम का सदस्य बनना, त्याग करना, अनुशासन और समय प्रबंधन जैसे गुण कैसे सीख सकते हैं।

असफलताओं से निपटना सीखें (Learn on how to deal with Failure)

- * खेल के मैदान पर हर खिलाड़ी कभी न कभी हार का सामना करता है। असफलता सिखाती है कि कैसे अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। यह मानसिक मजबूती और आत्म-विश्लेषण का विकास करता है।
- * उदाहरण: क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो वह अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करता है।
- * जीवन में उपयोगिता: असफलताओं को सकारात्मक नजरिए से देखना और दोबारा प्रयास करना।

कठिन परिश्रम का महत्व (Importance of Working Hard)

- * खेल में सफलता कठिन परिश्रम के बिना संभव नहीं है। लगातार अभ्यास, फिटनेस बनाए रखना, और कौशल में सुधार लाना खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य है।
- * उदाहरण: एक धावक को अपनी गति और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना घंटों अभ्यास करना पड़ता है।
- * जीवन में उपयोगिता: यह गुण सिखाता है कि मेहनत और समर्पण के बिना बड़े लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते।

स्पोर्ट्स सिखाता है कि टीम का सदस्य कैसे बने (Sports Will Teach How to Be a Team Member)

- * टीम खेल, जैसे फुटबॉल और हॉकी, यह सिखाते हैं कि टीम का हर सदस्य महत्वपूर्ण है। सफलता तब मिलती है जब सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करें।
- * उदाहरण: फुटबॉल में टीम के खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से अधिक टीम के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- * जीवन में उपयोगिता: यह गुण हमें कार्यस्थल पर और सामाजिक संबंधों में सामूहिकता का महत्व सिखाता है।

त्याग करना सीखना (Learning How to Make Sacrifices)

- * खेल हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर टीम और बड़े उद्देश्य के लिए काम करना सिखाता है।
- * उदाहरण: फुटबॉल में रक्षात्मक खिलाड़ी को अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर टीम के हित में खुद गोल न करके अपने साथी को बॉल पास कर देता है।
- * जीवन में उपयोगिता: यह सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण नहीं है।

अनुशासन सीखना (Learning Discipline)

- * खेल अनुशासन का सबसे बड़ा मंच है। खिलाड़ियों को समय पर अभ्यास, आहार नियंत्रण, और नियमों का पालन करना सिखाया जाता है।
- * उदाहरण: एक एथलीट को समय पर अभ्यास और सही खानपान का पालन करना अनिवार्य होता है।
- * जीवन में उपयोगिता: अनुशासन व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।

समय प्रबंधन (Time Management)

- * खेल में, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है। खिलाड़ियों को यह सीखना होता है कि कम समय में कैसे निर्णय लें और अपनी योजना को अमल में लाएं।
- * उदाहरण: बैडमिंटन या टेनिस खिलाड़ी को खेल के दौरान क्षणिक एवं उचित निर्णय लेना होता है।
- * जीवन में उपयोगिता: समय का सही उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।

खेल हमें असफलताओं से लड़ने, कठिन परिश्रम करने, टीम भावना विकसित करने, त्याग करने, अनुशासन में रहने और समय प्रबंधन का महत्व समझने में मदद करते हैं। ये सभी गुण हमें न केवल खेल के मैदान पर, बल्कि वास्तविक जीवन में भी अधिक सफल और आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं।

आइए, खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जीवन कौशलों को अपनी सबसे बड़ी सामर्थ्य!

खेल जीवन का आईना है, यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को संवारे और हर चुनौती को अवसर में बदलें।



विद्यार्थियों का आकलन



सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome):

विभिन्न प्रकार के आकलन की तुलना करते हैं और मूल्यांकन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं।

गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन के चरणों की पहचान करते हैं।

छात्रों के आकलन और मूल्यांकन को व्यवस्थित करते हैं।

अभिभावक के साथ संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रदर्शित करते हैं।

इकाई (2): विद्यार्थियों का आकलन

आकलन का अर्थ (Meaning of Assessment)

आकलन, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों के सीखने एवं प्रदर्शन से संबंधित जानकारी एकत्रित एवं विश्लेषित करके व्याख्या की जाती है। यह शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है एवं उनकी क्षमताओं को पहचानता है तथा सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। आकलन के कई रूप हो सकते हैं, जैसे परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, प्रेक्षण, परियोजनाएँ और स्व-मूल्यांकन, जो शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को मापने में सहायक होते हैं।



आकलन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है, बल्कि यह शिक्षण विधियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है तथा शिक्षार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। प्रभावी आकलन से शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे अपनी शैक्षिक प्रक्रिया में कहाँ हैं? आकलन से अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है तथा पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धतियों एवं शैक्षणिक मानकों से संबंधित निर्णय लेने में भी सहायता करता है।

आकलन, एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जो शिक्षा में निरंतर सुधार को बढ़ावा देती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सीखने के उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं एवं शिक्षार्थी भविष्य की शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तैयार हैं।

आकलन की परिभाषा (Definition of Assessment)

1. 'आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के प्रदर्शन के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है ताकि शिक्षार्थी के अधिगम और अधिगम पर्यावरण को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जा सकें।'

रॉबर्ट जे. मार्ज़ानो (Robert J. Marzano)

2. 'आकलन एक उपकरण है जो शिक्षार्थी के ज्ञान को समझने और शिक्षण का मार्गदर्शन करने में सहायक होता है। इसका उद्देश्य न केवल माप करना बल्कि शिक्षार्थी के अधिगम को बेहतर बनाना भी है।'

ग्रंट विगिन्स (Grant Wiggins)

3. 'आकलन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के अधिगम और प्रदर्शन का अवलोकन और मापन किया जाता है ताकि निरंतर सुधार हो सके।'

सुसान एम. ब्रुकहार्ट (Susan M. Brookhart)

4. 'आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उपयोग ताकत और विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिल सके।'

बेंजामिन एस. ब्लूम (Benjamin S. Bloom)

5. 'आकलन शिक्षण और अधिगम के बीच का सेतु है; यह प्रतिक्रिया प्रदान करता है जो शिक्षकों के निर्देश को शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सहायता करता है।'

कैरोल एन टॉमलिनसन (Carol Ann Tomlinson)

6. 'आकलन एक चिंतनशील प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक विभिन्न विधियों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के सीखने की तत्परता, प्रगति, और अधिग्रहण का पता लगाता है।'

डॉ. सचिन कुमार और डॉ. उमेश कुमार अहलावत

(Dr. Sachin Kumar and Dr. Umesh Kumar Ahlawat)

आकलन के प्रकार (Types of Assessment)

शिक्षार्थियों के सीखने और प्रगति के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख आकलन के प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. स्व-आकलन (Self-Assessment)

स्व-आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने ज्ञान, कौशल और प्रदर्शन का आकलन स्वयं करते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी को अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझने में मदद मिलती है ताकि वे अपने विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।




उदाहरण के लिए दौड़ में शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं—जैसे कितनी तेजी से दौड़ा, कितनी बार रुके और कहाँ सुधार की जरूरत है। इस तरह, स्व-आकलन से वे अपनी गति को बढ़ाने, सहनशक्ति और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक रणनीतियाँ बना सकते हैं।

स्व-आकलन चेकलिस्ट: दौड़ का प्रदर्शन

स्व-आकलन के मापदंड	संतोषजनक	सुधार की आवश्यकता है	अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है
दौड़ की गति (Speed)			
मैंने अपनी दौड़ की गति संतोषजनक रखी।			
रुकावट की संख्या (Number of Pauses)			
मैं बिना रुके दौड़ सकता था।			
सांस की स्थिति (Breathing Condition)			
दौड़ते समय मुझे सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई।			
शरीर की प्रतिक्रिया (Body Response)			
शरीर में कोई दर्द या तनाव महसूस नहीं हुआ।			
सुधार के क्षेत्र (Areas for Improvement)			
मैं दौड़ में अपनी सहनशक्ति और गति में सुधार कर सकता हूँ।			
लक्ष्य तक पहुँचने की रणनीति (Strategy)			
दौड़ पूरी करने के लिए मेरी योजना सही रही।			

2. सहपाठी आकलन (Peer Assessment)

सहपाठी आकलन में शिक्षार्थी अपने सहपाठियों के कार्यों और प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। यह उन्हें न केवल एक-दूसरे से सीखने का अवसर देता है तथा उनके सहयोग को भी बढ़ावा देता है। यह संवाद और आलोचनात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशलों का विकास करने में सहायक होता है। सहपाठी आकलन से शिक्षार्थियों को अपने विचार साझा करने और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देने का अवसर मिलता है जिससे वे अपने प्रदर्शन में सुधार की ओर प्रेरित होते हैं।



उदाहरण के लिए एक खेल गतिविधि में शिक्षार्थी एक साथ दौड़ लगाने की गतिविधि करते हैं, सहपाठी आकलन के माध्यम से वे एक-दूसरे की गति, ऊर्जा स्तर और तकनीक का आकलन कर सकते हैं। एक शिक्षार्थी अपने सहपाठी को सुझाव दे सकता है कि वह कैसे अपनी दौड़ने की तकनीक में सुधार कर सकता है या ऊर्जा को सही ढंग से कैसे बनाए रख सकता है। इस प्रकार की के सकारात्मक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) से शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं।

सहपाठी आकलन चेकलिस्ट: दौड़ने का आकलन

मापदंड	हां (✓)	नहीं (✗)	टिप्पणी
गति का मूल्यांकन: सहपाठी की गति निरंतर है और दौड़ की दूरी के लिए उपयुक्त है।			
ऊर्जा स्तर: सहपाठी ने दौड़ के दौरान ऊर्जा को सही ढंग से बनाए रखा है।			
दौड़ने की तकनीक: दौड़ने की तकनीक में सुधार के लिए सुझाव दें (जैसे हाथों की स्थिति, शरीर का झुकाव)।			
संतुलन: दौड़ते समय सहपाठी का संतुलन अच्छा है और वे नियंत्रण में हैं।			
समर्थन: सहपाठी ने दौड़ के दौरान सकारात्मक रवैया बनाए रखा और आत्मविश्वास दिखाया।			
समग्र प्रदर्शन: सहपाठी के दौड़ने के प्रदर्शन में कोई विशेष सुधार की आवश्यकता है।			

सहपाठी को प्रतिपुष्टि दें:


1. सामर्थ्य: _____
2. सुधार के सुझाव: _____

3. शिक्षक का अवलोकन (Teacher Observation)

शिक्षक का अवलोकन एक महत्वपूर्ण आकलन प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार, भागीदारी, और उनके कार्य की गुणवत्ता का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं। इसके द्वारा शिक्षक यह

जान सकते हैं कि शिक्षार्थी किस प्रकार से विषयवस्तु को समझ रहे हैं, किस क्षेत्र में उनकी रुचि अधिक है तथा किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

उदाहरण के लिए, शारीरिक गतिविधियों के दौरान शिक्षक ध्यान देते हैं कि शिक्षार्थी समूह में किस तरह भाग लेते हैं, क्या वे खेल में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं, क्या वे अपनी भूमिका समझ रहे हैं और टीमवर्क में उनकी भागीदारी कैसी है।



शिक्षक अवलोकन चेकलिस्ट: शारीरिक गतिविधियों के दौरान

अवलोकन मापदंड	हां (✓)	नहीं (×)	टिप्पणी
क्या शिक्षार्थी खेल में पूरी रुचि और ऊर्जा के साथ भाग लेता हैं?			
क्या शिक्षार्थी अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझता हैं?			
क्या शिक्षार्थी समूह में मिलकर काम करने का प्रयास करता हैं?			
क्या शिक्षार्थी गतिविधि के दौरान खेल भावना का प्रदर्शन करता हैं?			
क्या शिक्षार्थी अपने साथियों का सम्मान करता हैं और उनकी मदद करता हैं?			
क्या शिक्षार्थी खेल के नियमों का पालन करता हैं?			
क्या शिक्षार्थी चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हैं?			
क्या शिक्षार्थी में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि दिखाई देती है?			
क्या शिक्षार्थी खेल के दौरान संवाद और संचार में सुधार करता हैं?			
क्या शिक्षार्थी समूह और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर फीडबैक से सीखता हैं?			

4. गृहकार्य (Homework)

गृहकार्य, एक प्रकार का आकलन है जो शिक्षार्थियों के लिए घर पर कक्षा में करवाई गई विषय सामग्री का स्वयं अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है और उन्हें विषय सामग्री पर गहराई से विचार करने का अवसर देता है। गृहकार्य के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों की समझ और प्रगति का आकलन कर सकते हैं। हम यह भी जान सकते हैं कि शिक्षार्थी विषय को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। यह न केवल विषय की बेहतर समझ में सहायक होता है बल्कि स्व-अध्ययन और अनुशासन के विकास में भी योगदान देता है।

उदाहरण- यदि कक्षा में शारीरिक गतिविधियों पर आधारित पाठ पढ़ाया गया है तो शिक्षक शिक्षार्थियों को गृहकार्य के रूप में कुछ शारीरिक अभ्यास जैसे - दौड़ना, कूदना या योगाभ्यास करने के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार के कार्य से शिक्षार्थियों को व्यावहारिक रूप से सीखने का अवसर मिलता है जिससे उनकी शारीरिक क्षमताओं का भी विकास होता है।

उपरोक्त आकलन का उद्देश्य शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना है ताकि उन्हें शैक्षणिक सफलता की ओर अग्रसर किया जा सके।

आकलन को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Influencing Assessment)

आकलन की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जो शिक्षार्थियों के प्रदर्शन और परिणामों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारकों का विवरण दिया गया है:

1. शारीरिक कारक (Physical Factors)

शारीरिक कारक शिक्षार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य, आयु, लिंग, फिटनेस स्तर और किसी भी स्वास्थ्य समस्या से जुड़े होते हैं। ये कारक किसी भी शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और उसके आकलन के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

उदाहरण:

- * **आयु:** छोटे बच्चों और किशोरों के बीच शारीरिक विकास के स्तर में स्पष्ट अंतर होता है। उदाहरण के लिए, एक 10 वर्षीय शिक्षार्थी का शारीरिक विकास एक 15 वर्षीय शिक्षार्थी की तुलना में भिन्न हो सकता है, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता में भी भिन्नता आती है। आयु एक महत्वपूर्ण कारक है, जो शिक्षार्थियों के आकलन में अहम भूमिका निभाता है।
- * **लिंग:** यह विभिन्न शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। किशोरों में मांसपेशियों की शक्ति और धैर्य के स्तर में प्राकृतिक अंतर होता है जो उनके शारीरिक प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के

लिए खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों में लड़के और लड़कियों की रुचि तथा उनकी शारीरिक क्षमता का प्रभाव उनकी सीखने की पद्धति और क्षमता पर भी दिखाई दे सकता है।

स्वास्थ्य स्थितियों की जाँच सूची

शारीरिक कारक	जाँच बिंदु	टिक करें (✓)
1. पोषण स्थिति (Nutritional Status)	क्या शिक्षार्थी ने आज भोजन किया है?	
	क्या शिक्षार्थी ने पर्याप्त मात्रा में पानी पिया है?	
	क्या शिक्षार्थी ने संतुलित आहार लिया है?	
2. नींद की गुणवत्ता (Quality of Sleep)	क्या शिक्षार्थी को पिछली रात पर्याप्त नींद मिली?	
	क्या शिक्षार्थी को नींद की कमी या थकान महसूस हो रही है?	
3. दवाई या उपचार (Medication or Treatment)	क्या शिक्षार्थी किसी दवाई पर है जो उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है?	
	क्या शिक्षार्थी को कोई नियमित उपचार या चिकित्सा सेवाएँ मिल रही हैं?	
4. सामान्य स्वास्थ्य स्थिति (General Health Condition)	क्या शिक्षार्थी को कोई बीमारी या शारीरिक असुविधा है?	
	क्या शिक्षार्थी को किसी चोट या दर्द का सामना करना पड़ रहा है?	
5. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)	क्या शिक्षार्थी तनाव, चिंता, या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है?	
	क्या शिक्षार्थी का मानसिक स्वास्थ्य उसकी आकलन क्षमता को प्रभावित कर रहा है?	

2. विद्यालय संबंधी कारक (School Factors)

विद्यालय संबंधी कारक आकलन की प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें विद्यालय का वातावरण, सुविधाएँ, पाठ्यक्रम, और संसाधनों की उपलब्धता शामिल है। यदि स्कूल में उपयुक्त संसाधनों और अच्छे शिक्षण वातावरण का अभाव है, तो शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में कमी आ सकती है। इसके अलावा, विद्यालय की नीतियाँ और आकलन के मानदंड भी शिक्षार्थियों की सफलता पर प्रभाव डालते हैं।

उदाहरण:

- * **विद्यालय का वातावरण:** यदि विद्यालय का वातावरण सकारात्मक और सहयोगी है, तो शिक्षार्थी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यालय जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच खुला संवाद होता है, वहाँ शिक्षार्थी अधिक आत्मविश्वास से प्रदर्शन कर सकते हैं।
- * **संसाधनों की उपलब्धता:** यदि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त उपकरण और सुविधाएँ नहीं हैं, जैसे कि खेल का मैदान या उपकरण, तो शिक्षार्थियों को उचित प्रशिक्षण और आकलन करने में कठिनाई हो सकती है।

विद्यालय संबंधित कारकों की जाँच सूची

विद्यालय संबंधी कारक	जाँच बिंदु	टिक करें (✓)
1. विद्यालय का वातावरण	क्या विद्यालय का वातावरण सकारात्मक और सहयोगी है?	
	क्या शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच खुला संवाद होता है?	
	क्या विद्यालय का वातावरण आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है?	
2. संसाधनों की उपलब्धता	क्या शारीरिक शिक्षा के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हैं?	
	क्या खेल का मैदान और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है?	
	क्या शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं?	
3. पाठ्यक्रम	क्या पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप है?	
	क्या पाठ्यक्रम में विविधता और व्यावहारिकता शामिल है?	
	क्या पाठ्यक्रम के अनुसार आकलन प्रक्रिया उचित है?	
4. विद्यालय की नीतियाँ	क्या विद्यालय की नीतियाँ शिक्षार्थियों के विकास के अनुकूल हैं?	

	क्या विद्यालय की नीतियाँ आकलन के मानदंडों का समर्थन करती हैं?	
	क्या नीतियाँ शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने में सहायक हैं?	

3. शिक्षक संबंधी कारक (Teacher Factors)

शिक्षक की योग्यता, अनुभव और शिक्षण शैली आकलन को प्रभावित करती हैं। कुशल शिक्षक शिक्षार्थियों के प्रति संवेदनशील होता है तथा शिक्षार्थियों के लिए सकारात्मक आकलन का वातावरण बनाता है। इसके विपरीत, यदि शिक्षक की समझ और मार्गदर्शन उचित नहीं है, तो यह आकलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

उदाहरण:

- * **शिक्षक की योग्यता:** शिक्षक के अपने विषय की अच्छी समझ और नवीनतम शिक्षण विधियों से अवगत होने पर शिक्षार्थियों को बेहतर तरीके से सीखने का अवसर मिलता है।
- * **शिक्षण शैली:** आकलन शिक्षण शैली से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जिस प्रकार की शिक्षण शैली का प्रयोग शिक्षक करता है, उसके अनुसार ही आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करता है।

आकलन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों, स्कूलों और अभिभावकों को एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों के विकास और उनकी शैक्षणिक सफलता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

आकलन उपकरण (Assessment Tools)

आकलन उपकरण शिक्षकों और प्रशिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करते हैं। यह उपकरण विभिन्न प्रकार के आकलन के लिए उपयोग किए जाते हैं और शिक्षार्थियों की क्षमताओं का सही आकलन करने में सहायक होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आकलन उपकरणों का विवरण दिया गया है:

1. चेकलिस्ट (Checklist)

चेकलिस्ट एक सरल और प्रभावी आकलन उपकरण है। इसमें विभिन्न मानदंडों या कार्यों की एक सूची होती है, जिन्हें पूरा करना होता है। शिक्षक इस सूची का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि शिक्षार्थी ने किन कार्यों को पूरा किया है और कौन से कार्य अभी शेष हैं।

उदाहरण: एक शारीरिक शिक्षा पाठ में, शिक्षक एक चेकलिस्ट बना सकते हैं जिसमें विभिन्न कौशल जैसे दौड़ना, कूदना और फेंकना शामिल हो। जब शिक्षार्थी इन कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, तो शिक्षक चेकलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से कौशल सही ढंग से किए गए और किस कौशल में अभी सुधार की आवश्यकता है।

चेकलिस्ट (Checklist)

कार्य (Task)	पूरा हुआ (Completed)	नोट्स (Notes)
स्ट्रेचिंग (Stretching)		
दौड़ना (Running)		
कूदना (Jumping)		
फेंकना (Throwing)		
पकड़ना (Catching)		
योग (Yoga)		
समन्वय (Coordination)		
गेंद खेल (Ball Games)		
समूह खेल (Team Sports)		

उपयोग (Usage):

- * शिक्षक प्रत्येक कार्य के सामने 'पूरा हुआ' कॉलम में चेक (✓) कर सकते हैं जब शिक्षार्थी उसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित करता है।
- * 'नोट्स' कॉलम का उपयोग किसी विशेष शिक्षार्थी के प्रदर्शन या सुधार की आवश्यकता को लिखने के लिए किया जा सकता है।
- * यह चेकलिस्ट शिक्षार्थियों के कौशल का आकलन करने और उनके विकास को अनुसरण करने के लिए एक सरल और प्रभावी उपकरण है।

2. रूब्रिक (Rubric)

रूब्रिक, एक विस्तृत आकलन उपकरण है जिसमें शारीरिक क्रियाओं के महत्वपूर्ण तत्वों के अनुसार विशेष मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न स्तरों के प्रदर्शन के लिए स्पष्ट संकेत प्रदान करता

है, जिससे शिक्षक को शिक्षार्थियों के काम की गुणवत्ता का सही आकलन करने में मदद मिलती है।

उदाहरण: यदि शिक्षार्थी के खेल प्रदर्शन का आकलन करना हो, तो शिक्षक एक रूब्रिक बना सकते हैं जिसमें कौशल, रणनीति, टीमवर्क, और खेल के नियमों के पालन जैसे प्रदर्शन मानदंड शामिल हों। प्रत्येक मानदंड के लिए, शिक्षक विभिन्न स्तरों (उच्च, मध्यम, निम्न) के विशेष विवरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे शिक्षार्थी अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से समझ सकें।

रूब्रिक (Rubrics)

मानदंड (Criteria)	बहुत अच्छा (Very Good)	अच्छा (Good)	थोड़ा सुधार चाहिए (Needs Improvement)	टिप्पणी (Remarks)
कौशल (Skills)	आप सभी क्रियाएँ सही तरीके से करते हो।	आप कुछ क्रियाएँ सही करते हो, कुछ में मदद चाहिए।	आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है।	
टीमवर्क (Teamwork)	आप बहुत अच्छे से टीम के साथ काम करते हो।	आप टीम के साथ अच्छे से काम करते हो, कभी-कभी मदद की आवश्यकता होती है।	आपको टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए।	
खेल के नियम (Game Rules)	आप खेल के सारे नियम अच्छे से मानते हो।	आप नियमों का पालन करते हो, कभी-कभी भूल जाते हो।	आप नियमों का पालन नहीं करते हो।	

3. मानक (Benchmark)

मानक, एक निश्चित स्तर या संदर्भ बिंदु है जिसके अनुसार शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। मानक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी शिक्षार्थियों की प्रगति मानक के स्तर पर हो रही है। यह उनकी क्षमताओं को एक तुलनात्मक आधार प्रदान करता है।

उदाहरण: एक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे कि 100 मीटर दौड़ में एक निश्चित समय में दौड़ना। जब सभी शिक्षार्थियों का प्रदर्शन इस मानक के अनुसार

आंका जाता है, तो यह शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से शिक्षार्थी मानक पर खरे उतर रहे हैं और किस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के लिए 100 मीटर दौड़ के लिए उदाहरणीय मानक

श्रेणी (Category)	मानक (Benchmark)	विवरण (Description)
उत्कृष्ट प्रदर्शन (Excellent Performance)	15 सेकंड के अंदर दौड़ना	शिक्षार्थी ने 100 मीटर दौड़ को 15 सेकंड के भीतर पूरा किया। यह उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता को दर्शाता है।
अच्छा प्रदर्शन (Good Performance)	16-18 सेकंड में दौड़ना	शिक्षार्थी ने 100 मीटर दौड़ को 16-18 सेकंड के भीतर पूरा किया। यह अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य और क्षमता को दिखाता है।
संतोषजनक प्रदर्शन (Satisfactory Performance)	19-21 सेकंड में दौड़ना	शिक्षार्थी ने 100 मीटर दौड़ को 19-21 सेकंड के भीतर पूरा किया। यह मानक से कुछ कम है, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण से सुधार हो सकता है।
प्रयास की आवश्यकता (Needs Improvement)	22 सेकंड से अधिक समय में दौड़ना	शिक्षार्थी ने 100 मीटर दौड़ को 22 सेकंड या उससे अधिक समय में पूरा किया। यह प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

आकलन उपकरणों का उपयोग शिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने और उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने में मदद करता है। इससे शिक्षार्थियों के विकास और शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा मिलता है।

मूल्यांकन के प्रकार (Types of Evaluation)

मूल्यांकन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो शिक्षार्थियों की प्रगति और सीखने की स्थिति का पता लगाने के लिए की जाती है। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के तीन प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है:

1. रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation)

इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी करना और उन्हें सुधार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। इसे प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है ताकि शिक्षकों को यह पता चले कि शिक्षार्थियों ने क्या सीखा है और किस क्षेत्र में उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता

है। कक्षा में छोटे-छोटे परीक्षण, परियोजना कार्य और प्रश्नोत्तर सत्र इस मूल्यांकन के तरीके होते हैं। शिक्षक इन गतिविधियों के माध्यम से यह समझते हैं कि शिक्षार्थी किस स्तर तक विषयवस्तु को समझ रहे हैं और कौन से क्षेत्र में उन्हें सुधार की आवश्यकता है।

उदाहरण: कक्षा 5 के शारीरिक शिक्षा सत्र में शिक्षक ने शिक्षार्थियों को 50 मीटर दौड़ का अभ्यास करवाया। दौड़ के उपरांत, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के दौड़ने की तकनीक, गति और संतुलन का अवलोकन करते हैं। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थियों को उनकी तकनीक में सुधार के लिए सुझाव देते हैं, जैसे कि दौड़ते समय हाथों को सही तरीके से हिलाना, घुटनों को ऊपर उठाना और शरीर को संतुलित रखना।

इसके पश्चात शिक्षक सभी शिक्षार्थियों को कुछ मिनट का विश्राम देकर पुनः दौड़ने का अभ्यास कराते हैं जिससे वे दिए गए सुझावों का अभ्यास कर सकें। शिक्षक शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी करते हैं और सुधार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों की दौड़ने की क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है।



2. समग्र मूल्यांकन (Summative Evaluation)

समग्र मूल्यांकन किसी शिक्षण क्रिया या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि शिक्षार्थी ने पूरे पाठ्यक्रम में कितनी दक्षता प्राप्त की है। यह आमतौर पर

एक परीक्षा, परियोजना या अंतिम परीक्षण के रूप में होता है और इसका उपयोग शिक्षार्थियों को ग्रेड या अंक देने के लिए किया जाता है।

1. **उदाहरण:** वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर की समाप्ति पर होने वाली परीक्षा, या किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन के उदाहरण हैं। ये मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया का निष्कर्ष होता है और यह दर्शाता है कि शिक्षार्थी ने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कितनी हद तक पूरा किया है।



2. **उदाहरण:** कक्षा 5 के शारीरिक शिक्षा सत्र के अंत में शिक्षक एक वार्षिक फिटनेस परीक्षण आयोजित करते हैं। इसमें शिक्षार्थियों को 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, और एक मिनट तक स्क्वाट्स (squat) जैसी गतिविधियों में भाग लेना होता है। यह परीक्षण पूरे सत्र में किए गए अभ्यासों और कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए होता है।

प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन को इन गतिविधियों में उनके समय, गति, और तकनीक के आधार पर अंक दिए जाते हैं। तदोपरान्त, शिक्षक इन अंकों के आधार पर शिक्षार्थियों को उनके शारीरिक कौशल और फिटनेस स्तर के अनुसार ग्रेड देते हैं। यह परीक्षण पूरे शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित दक्षताओं का एक समग्र मूल्यांकन है, और इसका उद्देश्य शिक्षार्थी की प्रगति को मापना और निष्कर्ष निकालना है कि उन्होंने निर्धारित लक्ष्य कितनी कुशलता से हासिल किए हैं।

3. निदानात्मक मूल्यांकन (Diagnostic Evaluation)

निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी विषय वस्तु या शारीरिक क्रिया के संदर्भ में शिक्षार्थी की वर्तमान स्थिति का पता लगाना होता है, ताकि उनके सीखने में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। यह मूल्यांकन आमतौर पर किसी नए विषय या शारीरिक क्रिया की शुरुआत या मध्य में किया जाता है इससे शिक्षक यह समझ पाते हैं कि शिक्षार्थी को किन क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

उदाहरण: मान लीजिए कि एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक लंबी दूरी की दौड़ पर एक क्रिया शुरू करने वाले हैं। क्रिया शुरू करने से पहले, शिक्षक निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं ताकि यह पता चल सके कि प्रत्येक शिक्षार्थी का वर्तमान फिटनेस स्तर और दौड़ने की तकनीक कैसी है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

शारीरिक पुष्टि परीक्षण (फिटनेस टेस्ट): शिक्षक शिक्षार्थियों से एक निश्चित दूरी (जैसे, 1 किमी) दौड़ने के लिए कह सकते हैं और उनके गति एवं मांसपेशी सहनशक्ति स्तर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ शिक्षार्थी शायद दूरी पूरी करने में कठिनाई महसूस करें या जल्दी थकान दिखाएं।

दौड़ने की शैली का विश्लेषण: शिक्षक शिक्षार्थियों की दौड़ने की तकनीक (मुद्रा, कदमों की लंबाई, श्वास) का अवलोकन करते हैं और जान पाते हैं कि कुछ शिक्षार्थी गलत मुद्रा या अप्रभावी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।



टिप्पणी: यह सभी प्रकार के मूल्यांकन शिक्षार्थियों की शैक्षणिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति का विश्लेषण करने और उनके विकास में सहयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं।

आकलन (Assessment) और मूल्यांकन (Evaluation) के बीच अंतर

	आकलन (Assessment)	मूल्यांकन (Evaluation)
अर्थ (Meaning):	शिक्षार्थियों की प्रगति, समझ, और क्षमताओं की पहचान करने और उन्हें सुधारने के उद्देश्य से की गई प्रक्रिया।	किसी क्रिया, कार्यक्रम, या शिक्षार्थियों की उपलब्धियों की गुणवत्ता या मूल्य का मापन करना और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना।
उद्देश्य (Objective):	शिक्षार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना।	शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को मापना और उसे एक मानक या लक्ष्य के आधार पर जाँचना।
प्रकार (Type):	आमतौर पर, आकलन निरंतर प्रक्रिया है, जैसे कि प्रगति के दौरान होने वाले छोटे परीक्षण।	मूल्यांकन अक्सर किसी इकाई, सत्र, या कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, जैसे कि अंतिम परीक्षा।
उदाहरण (Example):	कक्षा में किए गए, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्नोत्तरी या गतिविधियां।	अंतिम परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक पुष्टि परीक्षण।
प्रक्रिया (Process):	प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधार की संभावना पर अधिक ध्यान देना।	अंतिम ग्रेड या अंक देने के लिए परिमाणात्मक मूल्यांकन।
प्रभाव (Impact):	सीखने की दिशा और आवश्यकता को समझने के लिए मददगार।	किसी कार्य, प्रदर्शन या सीखने की उपलब्धियों की गुणवत्ता का समग्र मूल्यांकन।

इस प्रकार, आकलन (Assessment) सीखने की प्रक्रिया में प्रगति को मापने का एक निरंतर तरीका है, जबकि मूल्यांकन (Evaluation) किसी कार्यक्रम या सीखने के अंत में उसकी गुणवत्ता या मानक को मापने का अंतिम चरण है।

गुणात्मक आकलन का अर्थ (Meaning of Qualitative Assessment)

गुणात्मक आकलन एक गहराई से अवलोकन करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षार्थी की संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी की शैक्षणिक और व्यवहारिक प्रगति का मूल्यांकन

संख्याओं के बजाय उनके अनुभवों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और कार्यों के आधार पर किया जाता है। यह आकलन शिक्षार्थियों के सीखने के तरीके, उनकी सोचने की प्रक्रिया और ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। इससे गहरी समझ और कौशल का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

गुणात्मक आकलन के चरण (Steps in Qualitative Assessment)

इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

गुणात्मक आकलन के चरण	विवरण
उद्देश्य की पहचान (Identifying the Purpose)	आकलन का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस कौशल, ज्ञान, या व्यवहार का आकलन करना है। इसके आधार पर शिक्षक यह निर्णय लेते हैं कि किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
आंकड़े संग्रहण (Data Collection)	गुणात्मक आकलन में संख्यात्मक आंकड़ों के बजाय, अवलोकन, साक्षात्कार, शिक्षार्थी प्रतिक्रियाओं और उनके कार्यों के आधार पर जानकारी संकलित की जाती है। शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार और भाषा पर अपनी प्रक्रियाएं देते हैं।
आंकड़ों का विश्लेषण (Analyzing the Data)	संग्रहीत आंकड़े का विश्लेषण कर यह समझा जाता है कि शिक्षार्थी ने किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है और उसकी सोच और सीखने की क्षमता में कैसे विकास हो रहा है।
प्रतिपुष्टि प्रदान करना (Providing Feedback)	शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिपुष्टि देते हैं, जो उसके सामर्थ्य और कमजोरियों को उजागर करती है ताकि वे सीखने के तरीकों में सुधार कर सकें।
निरंतर मूल्यांकन (Ongoing Evaluation)	गुणात्मक आकलन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक नियमित रूप से शिक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में निरंतर प्रगति कर रहे हैं।

समायोजन

(Adjustment in Teaching Methods)

आकलन के परिणामों के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यक बदलाव करते हैं ताकि शिक्षार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और निर्देशित किया जा सके।

इन चरणों के माध्यम से गुणात्मक आकलन यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थियों की गहन समझ और उनकी सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से पहचाना और विकसित किया जा सके।

गुणात्मक आकलन का उदाहरण

मान लीजिए शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक 10 सालके शिक्षार्थियों के लिए एक क्रिया आयोजित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य संतुलन (Balance) में सुधार करना है। इसके लिए प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को बैलेंस बीम (Beam) पर चलना और संतुलन बनाए रखने के अन्य अभ्यास सिखाते हैं। प्रशिक्षक यह देखना चाहते हैं कि शिक्षार्थी संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं एवं यह कौशल वे किस स्तर तक सीख रहे हैं, जिसके लिए वे गुणात्मक आकलन का उपयोग करते हैं।



गुणात्मक आकलन के चरण	विवरण
उद्देश्य की पहचान (Identifying the Purpose)	प्रशिक्षक का उद्देश्य यह देखना है कि शिक्षार्थी बैलेंस बीम पर चलते समय संतुलन बनाए रखने में किस स्तर तक सक्षम हैं।
आंकड़े संग्रहण (Data Collection)	<ul style="list-style-type: none"> * बैलेंस बीम पर चलते समय शिक्षार्थी कितने स्थिर रहते हैं। * संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षार्थियों की शारीरिक स्थिति और गति की निगरानी।
आंकड़ों का विश्लेषण (Analyzing the Data)	<ul style="list-style-type: none"> * कौन से शिक्षार्थी बैलेंस बीम पर अच्छे से संतुलन बनाए रखते हैं। * कौन-कौन से शिक्षार्थी संतुलन बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं।

प्रतिपुष्टि प्रदान करना (Providing Feedback)	<ul style="list-style-type: none"> * अच्छे प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों को अधिक अभ्यास के लिए प्रेरित करना। * जिन शिक्षार्थियों को संतुलन बनाए रखने में समस्या हो रही है, उन्हें धीरे-धीरे अभ्यास करने और ध्यान केंद्रित करने की सलाह देना।
निरंतर मूल्यांकन (Ongoing Evaluation)	प्रशिक्षक शिक्षार्थियों की संतुलन क्षमता का लगातार अवलोकन करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे सुधार कर रहे हैं।
समायोजन (Adjustment in Teaching Methods)	यदि कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई हो रही है, तो प्रशिक्षक उनके लिए सरल गतिविधियाँ जैसे जमीन पर रस्सी फैला कर उस पर चलने का अभ्यास करवा सकते हैं।

परिणाम: प्रशिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी की संतुलन क्षमता को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और गुणात्मक आकलन के माध्यम से यह जान पाएंगे कि कौन से शिक्षार्थी को अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

मात्रात्मक आकलन का अर्थ (Meaning of Quantitative Assessment)

मात्रात्मक आकलन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिक्षार्थियों के प्रदर्शन, ज्ञान और कौशल को संख्यात्मक रूप में मापने के लिए किया जाता है। यह एक गणितीय और सांख्यिकीय दृष्टिकोण अपनाता है, जो आंकड़ों को सांख्यिकीय रूप में प्रस्तुत करता है। मात्रात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को इस बात की जानकारी प्रदान करना है कि शिक्षार्थी कितनी अच्छी तरह से पाठ्यक्रम की सामग्री को समझकर प्रदर्शन करते हैं।

इस प्रकार के आकलन में आमतौर पर मानक परीक्षण, प्रश्नपत्र, और मानक मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन माध्यमों से शिक्षार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को अंक या ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उनकी प्रगति को मापना और तुलना करना संभव होता है।

मात्रात्मक आकलन का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह परिणामों को स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है। शिक्षकों को यह सुविधा मिलती है कि वे विभिन्न शिक्षार्थियों के बीच तुलना कर सकें और समझ सकें कि कौन से शिक्षार्थी उच्च प्रदर्शन कर रहे हैं और किन शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता है।

मात्रात्मक आकलन उदाहरण: कक्षा के 30 शिक्षार्थियों की गति परीक्षण के आंकड़े और तुलना

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक ने कक्षा 5 के 30 शिक्षार्थियों के लिए एक गति परीक्षण आयोजित किया, जिसमें शिक्षार्थियों को 50 मीटर की दूरी दौड़ कर तय करनी थी। प्रत्येक शिक्षार्थी का समय सेकंड में मापा गया और नीचे तालिका में दर्ज किया गया है तदोपरांत परिणामों का विश्लेषण किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि कौन से शिक्षार्थी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और किन्हें सुधार की आवश्यकता है।



गति परीक्षण के आंकड़े

शिक्षार्थी संख्या	50 मीटर का समय (सेकंड में)	शिक्षार्थी संख्या	50 मीटर का समय (सेकंड में)	शिक्षार्थी संख्या	50 मीटर का समय (सेकंड में)
1.	7.2	11.	8.9	21.	6.8
2.	6.5	12.	7.8	22.	9.1
3.	8.0	13.	6.9	23.	7.3
4.	9.4	14.	6.4	24.	6.7

5.	7.6	15.	7.5	25.	9.8
6.	10.1	16.	6.3	26.	7.2
7.	8.3	17.	7.7	27.	8.6
8.	9.7	18.	8.2	28.	7.0
9.	6.6	19.	10.5	29.	8.1
10.	8.5	20.	7.4	30.	6.8

तुलना और विश्लेषण

1. उत्तम प्रदर्शन वाले शिक्षार्थी (6.5 सेकंड से कम)

शिक्षार्थी संख्या 2 (6.5 सेकंड), शिक्षार्थी संख्या 14 (6.4 सेकंड) और शिक्षार्थी संख्या 16 (6.3 सेकंड) सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शिक्षार्थियों का समय औसत से कम है।

2. औसत प्रदर्शन वाले शिक्षार्थी (6.5 सेकंड से 8.5 सेकंड के बीच)

अधिकांश शिक्षार्थी 7.0 सेकंड से 8.5 सेकंड के बीच का समय ले रहे हैं, जैसे कि शिक्षार्थी संख्या 1 (7.2 सेकंड), शिक्षार्थी संख्या 12 (7.8 सेकंड), और शिक्षार्थी संख्या 28 (7.0 सेकंड)।

इस समूह को संतोषजनक माना जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षार्थी औसत स्तर पर हैं।

3. सुधार की आवश्यकता वाले शिक्षार्थी (8.5 सेकंड से अधिक)

शिक्षार्थी संख्या 6 (10.1 सेकंड), शिक्षार्थी संख्या 19 (10.5 सेकंड), और शिक्षार्थी संख्या 25 (9.8 सेकंड) ने अपेक्षाकृत धीमी गति दिखाई।

इन शिक्षार्थियों को गति में सुधार की आवश्यकता है, और उन्हें अतिरिक्त अभ्यास करने की सलाह दी जा सकती है।

निष्कर्ष

इस मात्रात्मक आकलन से प्रशिक्षक को स्पष्ट जानकारी मिलती है कि:

- * शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शिक्षार्थी 2, 14, और 16 हैं।
- * औसत प्रदर्शनकर्ता शिक्षार्थी 7.0 से 8.5 सेकंड के बीच हैं, जिन्हें कम अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है।

- * सुधार की आवश्यकता वाले प्रदर्शनकर्ता (8.5 सेकंड से अधिक) वाले शिक्षार्थियों को अधिक मार्गदर्शन और अभ्यास की आवश्यकता है।

इस प्रकार का मात्रात्मक आकलन न केवल शिक्षार्थी की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि सुधार की दिशा में कदम उठाने में भी सहायक है।

मात्रात्मक आकलन के चरण (Steps in Quantitative Assessment)

मात्रात्मक आकलन का उद्देश्य शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को संख्यात्मक रूप से मापना होता है, जिससे उनके कौशल और ज्ञान का स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके। शारीरिक शिक्षा में, यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों की शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस को मापने में सहायक होती है। निम्नलिखित चरण मात्रात्मक आकलन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं:

मात्रात्मक आकलन के चरण	विवरण
उद्देश्य की पहचान (Identifying the Purpose)	प्रशिक्षक यह तय करते हैं कि किस कौशल या शारीरिक क्षमता का आकलन करना है, जैसे दौड़ने की गति या पुश-अप की संख्या। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।
उपयुक्त उपकरण और मापदंडों का चयन (Material Required)	आकलन के लिए आवश्यक उपकरण और मापदंडों का चयन किया जाता है, जैसे दौड़ के लिए स्टॉपवॉच, दूरी की माप, या पुश-अप्स के लिए समय-सीमा।
आंकड़े संग्रहण (Data Collection)	* शिक्षार्थियों के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़े संकलित किये जाते हैं, जैसे दौड़ने का समय या पुश-अप्स की संख्या, ताकि संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त हो सके।
आंकड़ों का विश्लेषण (Analyzing the Data)	* संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थियों ने किस प्रकार प्रदर्शन किया और कौन-से शिक्षार्थी मापदंडों पर खरे उतरे।
प्रतिपुष्टि और सुधार के सुझाव (Feedback and suggestions for improvement)	* आकलन के आधार पर शिक्षार्थियों को संख्यात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है, जैसे कि समय या स्कोर, जिससे उन्हें सुधार का दिशा-निर्देश मिलता है। * फीडबैक के आधार पर शिक्षार्थियों के लिए सुधार के सुझाव दिए जाते हैं और भविष्य में उनके प्रदर्शन का दोबारा आकलन किया जाता है।

परिणाम: इन चरणों का पालन करके प्रशिक्षक शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को माप सकते हैं और उन्हें सुधार के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है।

शिक्षण प्रक्रिया के तत्व (Elements of teaching process)

शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच एक संवादात्मक गतिविधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल, और मूल्यों का संचार करना है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इसके विभिन्न तत्वों को समझना आवश्यक है। आइए इन तत्वों पर विस्तार से विचार करें:

मात्रात्मक आकलन के चरण	विवरण
उद्देश्य निर्धारण (Setting Objectives)	शिक्षक यह तय करते हैं कि शिक्षार्थियों से किस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा है, जिससे वे स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें।
पाठ योजना (Lesson Planning)	शिक्षण की रीढ़ मानी जाती है। शिक्षक हर कक्षा के लिए विषयों का चयन करते हैं, शिक्षण विधियों का निर्णय लेते हैं। कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके।
शिक्षण सामग्री (Teaching Materials)	उपयुक्त सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकें, वीडियो, व्यावहारिक उपकरण, और डिजिटल संसाधन विषय को रोचक और समझने योग्य बनाते हैं। सामग्री शिक्षार्थियों की समझ और आयु के अनुसार चुनी जाती है।
शिक्षण विधियां (Teaching Methods)	व्याख्यान, चर्चा, प्रश्नोत्तर, और व्यावहारिक प्रदर्शनों जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षक ऐसी विधियाँ चुनते हैं जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार हों और सीखने में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

प्रेरणा (Motivation)	शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शिक्षक उन्हें प्रेरित करते हैं। प्रेरणा सकारात्मक प्रतिक्रिया, प्रोत्साहन, और शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को पहचानकर दी जाती है।
शिक्षक-शिक्षार्थी संवाद (Teacher-Student Interaction)	प्रभावी संवाद शिक्षार्थियों को समझने और अपने विचार व्यक्त करने में सहायक होता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच दो तरफा संवाद शिक्षा के अनुभव को गहरा और अधिक सहायक बनाता है।
आकलन और प्रतिपुष्टि (Assessment and Feedback)	शिक्षण के बाद शिक्षार्थियों की समझ का आकलन किया जाता है, जिससे शिक्षक उनकी प्रगति का पता लगा सकें। साथ ही, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें।
परिवर्तन और सुधार (Adaptation and Improvement)	शिक्षक अपने अनुभवों से सीखकर और शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर शिक्षण में निरंतर सुधार करते हैं। यह शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है।

निष्कर्ष: ये तत्व मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। उद्देश्य निर्धारण से लेकर आकलन और सुधार तक प्रत्येक तत्व शिक्षण को प्रभावी बनाने में योगदान देता है।

अविरत मूल्यांकन (Ongoing evaluation)

अविरत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण-प्रक्रिया के दौरान निरंतर रूप से की जाती है, ताकि शिक्षार्थियों की प्रगति का उचित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। इसका उद्देश्य केवल अंतिम परिणामों का आकलन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान, कौशल और समझ में निरंतर सुधार कर रहे हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में लगातार प्रतिक्रिया देना और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव करना शामिल होता है।

प्रक्रिया की निरंतरता (Continuity of the Process)

अविरत मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों के सीखने के हर चरण का निरीक्षण करते हैं। यह मूल्यांकन

किसी विशेष पाठ्यक्रम या शारीरिक गतिविधि के दौरान नियमित रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षार्थी को किसी गतिविधि में संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो रही है, तो शिक्षक उस शिक्षार्थी के प्रदर्शन का बार-बार मूल्यांकन करके उसे सुधारने हेतु सुझाव दिए जा सकते हैं।

निरंतर प्रतिपुष्टि (Continuous Feedback)

अविरत मूल्यांकन के दौरान शिक्षार्थियों को नियमित रूप से प्रतिपुष्टि दी जाती है। यह प्रतिपुष्टि तात्कालिक हो सकती है, जिससे शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन में तुरंत सुधार कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षार्थी किसी खेल में तालमेल सही से नहीं बना पा रहा है, तो शिक्षक उसे तुरंत सुझाव दे सकते हैं, जिससे शिक्षार्थी अगले प्रयास में बेहतर प्रदर्शन कर सके।

लचीला शिक्षण (Flexible Teaching)

इस प्रकार के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह शिक्षकों को शिक्षण में लचीलापन प्रदान करता है। जब शिक्षक किसी शिक्षार्थी की कमजोरियों को पहचानते हैं, तो वे अपनी शिक्षण रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं, ताकि उस शिक्षार्थी को बेहतर तरीके से सहायता मिल सके।

शिक्षार्थियों की प्रगति की पहचान (Identifying Learners' Progress)

अविरत मूल्यांकन से शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से शिक्षार्थी विषय को सही से समझ रहे हैं और किन शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, शारीरिक गतिविधियों के दौरान शिक्षक यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि कौन से शिक्षार्थी विशेष गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और किन्हें और अभ्यास की आवश्यकता है।

आवश्यक समायोजन (Necessary Adjustments)

अविरत मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक अपनी योजना में बदलाव कर सकते हैं। यदि कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई हो रही है, तो शिक्षक उन्हें सरल गतिविधियों से शुरुआत करने का सुझाव दे सकते हैं या उन्हें विशेष मार्गदर्शन दे सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण अभ्यासों की योजना बनाई जा सकती है।

सतत सुधार का साधन (A Tool for Continuous Improvement)

अविरत मूल्यांकन न केवल शिक्षार्थियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे वे अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को सही समय पर सुधार के अवसर प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि वे पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लगातार बेहतर होते रहें।

इस प्रकार, अविरत मूल्यांकन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों की क्षमताओं के आधार पर उन्हें निरंतर सुधार की दिशा में प्रेरित करता है।

उच्च गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख सफल कारक

(Key success factors for imparting high quality Physical Education)

शारीरिक शिक्षा न केवल शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु उनके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्रभावी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई कारक हैं जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने और शिक्षार्थियों के समग्र विकास में योगदान देते हैं। आइए इन प्रमुख सफलता कारकों को विस्तार से समझें:

1. योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक

उच्च गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षकों की योग्यता और उनका प्रशिक्षण है। एक प्रशिक्षित शिक्षक न केवल शारीरिक गतिविधियों का ज्ञान रखता है, बल्कि यह भी जानता है कि शिक्षार्थियों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुसार उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाए।

- * शिक्षकों में शिक्षार्थियों की आयु, क्षमता, और रुचियों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों को संशोधित करने की योग्यता होनी चाहिए।
- * उन्हें नियमित रूप से नवीनतम शारीरिक शिक्षा तकनीकों और अभ्यासों से अवगत रहना चाहिए।

2. व्यापक और संतुलित पाठ्यक्रम

एक सफल शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक व्यापक और संतुलित पाठ्यक्रम आवश्यक है। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे खेल, व्यायाम, योग, और अन्य रचनात्मक शारीरिक गतिविधियाँ।

- * इसमें शक्ति, लचीलापन, सहनशक्ति, संतुलन, और समन्वय जैसे शारीरिक तत्वों का विकास होना चाहिए।
- * विभिन्न गतिविधियाँ शिक्षार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करती हैं।

3. उचित उपकरण और सुविधाएं

उच्च गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में उपयुक्त उपकरण और सुविधाओं का होना आवश्यक है।

- * खेल के मैदान, जिम, और इनडोर खेल सुविधाओं की उपलब्धता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।
- * उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की चोट से बचाया जा सके।

4. शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण

शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को शिक्षार्थी-केंद्रित होना चाहिए, जहां शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए।

- * प्रत्येक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत प्रगति को समझना और उसे उसके अनुसार चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ प्रदान करना आवश्यक है।
- * शिक्षार्थियों की विशेष आवश्यकताओं, जैसे कि विशेष शारीरिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए।

5. निरंतर आकलन और प्रतिपुष्टि

शिक्षार्थियों के शारीरिक विकास की नियमित निगरानी और आकलन एक महत्वपूर्ण कारक है।

- * यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षार्थियों की शारीरिक फिटनेस, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करें और समय-समय पर उन्हें प्रतिपुष्टि दें।
- * शिक्षार्थियों की कमजोरियों को समझकर, उन्हें सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी शारीरिक क्षमताओं को सुधार सकें।

6. प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण

शारीरिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद करता है।

- * शिक्षक को शिक्षार्थियों को हर प्रयास के लिए सराहना और मान्यता देनी चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे हों।
- * खेल और शारीरिक गतिविधियों में सहयोग, अनुशासन, और खेल भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

7. समावेशिता और समानता

शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी शिक्षार्थियों को भाग लेने का समान अवसर मिले।

- * लिंग, जाति या शारीरिक क्षमताओं के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- * समावेशी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षार्थियों को एक साथ मिलकर काम करने, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने में मदद करता है।

8. स्वास्थ्य और सुरक्षा

शिक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है।

- * हर गतिविधि से पहले उचित वार्म-अप और स्ट्रेचिंग के माध्यम से शिक्षार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- * खेल के दौरान चोट से बचने के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि सुरक्षा गियर का उचित उपयोग।

9. उचित शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग

प्रभावी शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षण दृष्टिकोण का चयन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अनुभवात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के तहत शिक्षार्थियों को शारीरिक गतिविधियों को अनुभव करने और स्वयं से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षण दृष्टिकोण को इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुरूप हो और उनकी रुचि को बढ़ाने में सहायक हो।

निष्कर्ष: उच्च गुणवत्ता वाली शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक, संतुलित पाठ्यक्रम, उपयुक्त उपकरण और शिक्षार्थियों की प्रगति की निरंतर निगरानी जैसे कारकों का योगदान आवश्यक है। जब शिक्षार्थियों को सही दिशा, संसाधन और प्रोत्साहन मिलता है, तो वे शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ ही मानसिक रूप से भी अधिक अनुशासित बनते हैं।

मूल्यांकन योजना का आयोजन (Organizing an Evaluation Plan)

शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन योजना का आयोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। एक सुसंगठित मूल्यांकन योजना यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों की प्रगति का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन हो और शिक्षक इस प्रक्रिया का उपयोग करते हुए शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विकास और समग्र प्रदर्शन की दिशा में आवश्यक कदम उठा सकें।

1. उद्देश्यों की पहचान (Identifying Objectives)

मूल्यांकन योजना का पहला चरण है स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। यह मूल्यांकन किसके लिए किया जा रहा है और इसका परिणाम क्या होगा—ये प्रश्न योजना की नींव रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य शिक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता का आकलन करना है, तो मूल्यांकन का स्वरूप शारीरिक गतिविधियों और खेल प्रदर्शन के इर्द-गिर्द केंद्रित होना चाहिए।

2. मूल्यांकन के प्रकार का चयन (Selecting Types of Evaluation)

मूल्यांकन योजना के तहत यह तय करना आवश्यक है कि मूल्यांकन के किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा—रचनात्मक, समग्र, निदानात्मक या कोई अन्य। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के विकास का निरंतर आकलन करना है, तो रचनात्मक मूल्यांकन सबसे उपयुक्त रहेगा, जिसमें शिक्षार्थियों की प्रगति पर नियमित नजर रखी जा सकती है।

3. मूल्यांकन के उपकरण (Choosing Assessment Tools)

मूल्यांकन योजना में यह भी तय किया जाता है कि किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। जैसे: चेकलिस्ट, रूब्रिक (Rubric) और मानक। ये उपकरण सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थियों का मूल्यांकन न केवल तथ्यात्मक रूप से बल्कि गुणात्मक रूप से भी किया जाए। उदाहरण के लिए, शारीरिक शिक्षा में एक चेकलिस्ट का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें शिक्षार्थी के संतुलन, तालमेल और शारीरिक सहनशक्ति जैसे मानकों को आंका जाए।

4. समय का निर्धारण (Setting a Timeline)

मूल्यांकन योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है—समय सीमा का निर्धारण। यह निर्धारित करना आवश्यक है कि मूल्यांकन किस समय पर और कितनी बार होगा। उदाहरण के लिए, शारीरिक शिक्षा में यह तय किया जा सकता है कि त्रैमासिक मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

5. प्रवृत्तियों का विश्लेषण (Analyzing Trends)

मूल्यांकन योजना का एक प्रमुख पहलू यह है कि मूल्यांकन के बाद शिक्षार्थियों के प्रदर्शन से संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाए। इसके आधार पर शिक्षक यह निर्णय ले सकते हैं कि किन क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को और अधिक सहायता की आवश्यकता है, और किन क्षेत्रों में वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों के निरंतर विकास के लिए अनिवार्य है।

6. प्रतिपुष्टि और सुधारात्मक कदम (Feedback and Remedial Actions)

मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को समय-समय पर और रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जानी चाहिए। यह प्रतिपुष्टि शिक्षार्थियों को उनकी गलतियों से सीखने और आगे सुधार करने का

अवसर देती है। साथ ही, उन शिक्षार्थियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की योजना बनाई जानी चाहिए जो अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं।

7. मूल्यांकन योजना का निरंतर सुधार (Continuous Improvement of the Evaluation Plan)

मूल्यांकन योजना एक स्थिर दस्तावेज़ नहीं है। इसमें समय-समय पर संशोधन किए जाने चाहिए ताकि यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार बना रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक और प्रबंधक लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार करें।

निष्कर्ष: मूल्यांकन योजना का आयोजन एक सुविचारित प्रक्रिया है, जो शिक्षार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को प्रभावी ढंग से मापने और उनके व्यक्तिगत विकास की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने में मदद करता है। एक व्यवस्थित योजना शिक्षार्थियों की प्रगति की सटीक जानकारी देती है तथा शिक्षकों के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

अभिभावक-शिक्षक बैठक (Parent-Teacher Meeting)

अभिभावक-शिक्षक बैठक शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। यह बैठक अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित करने का एक मंच प्रदान करती है, जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरे के विचारों, चिंताओं और अपेक्षाओं को साझा कर सकते हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के शैक्षणिक विकास, सामाजिक व्यवहार और समग्र प्रगति पर चर्चा करना होता है।

बैठक का महत्व

अभिभावक-शिक्षक बैठकें शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ये बैठकें अभिभावकों को उनके बच्चों के विद्यालय में प्रदर्शन और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। इसके साथ ही, शिक्षकों को अभिभावकों की दृष्टिकोण और उनकी चिंताओं को समझने का अवसर मिलता है। यह संवाद न केवल शिक्षार्थियों के विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक सकारात्मक संबंध भी स्थापित करता है।



बैठक की तैयारी

अभिभावक-शिक्षक बैठक की सफलता के लिए उचित तैयारी आवश्यक है। शिक्षकों को बैठक से पहले शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की जानकारी, रिपोर्ट कार्ड और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्र करना चाहिए। इसी तरह, अभिभावकों को भी बैठक में शामिल होने से पहले अपने बच्चों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे संबंधित प्रश्न और चिंताएँ साझा कर सकें। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बैठक में सभी मुद्दों पर विचार किया जा सके।

बैठक का संचालन

बैठक का संचालन आमतौर पर शिक्षक द्वारा किया जाता है। बैठक में आमतौर पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाती है:

- * **शिक्षार्थियों का प्रदर्शन:** शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, अंकों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है।
- * **सामाजिक और व्यवहारिक पहलू:** शिक्षार्थियों के सामाजिक व्यवहार, समूह में कार्य करने की क्षमता और अन्य गतिविधियों में भागीदारी पर चर्चा होती है।
- * **अभिभावकों की चिंताएँ:** अभिभावक अपनी चिंताओं और सुझावों को साझा करते हैं, ताकि शिक्षक उन पर ध्यान दे सकें।
- * **संयुक्त योजना:** शिक्षक और अभिभावक मिलकर शिक्षार्थियों की प्रगति के लिए रणनीतियाँ तैयार करते हैं, जिससे शिक्षार्थी अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकें।

बैठक की समीक्षा

अभिभावक-शिक्षक बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की समग्र प्रगति को बढ़ावा देना है। इस बैठक के बाद अभिभावक और शिक्षक एक साझा दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हैं, जो शिक्षार्थियों के विकास में सहायक होता है। यह बैठक शिक्षार्थियों की शिक्षा में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष: अभिभावक-शिक्षक बैठकें शिक्षार्थियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संबंधों को मजबूत करने का भी कार्य करती हैं। इन बैठकों के माध्यम से सभी पक्षों को एक मंच पर लाने का अवसर मिलता है, जो शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अभिभावक-शिक्षक बैठक का प्रबंधन (Managing Parent-Teacher meeting)

अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। यह बैठक न केवल शिक्षार्थियों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए होती है, बल्कि यह अभिभावकों को स्कूल के शैक्षणिक वातावरण और गतिविधियों से भी अवगत कराती है। बैठक के सफल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है:



1. पूर्व-योजना (Pre-planning)

बैठक की तैयारी पहले से करनी चाहिए। तारीख और समय को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी अभिभावक और शिक्षक उपस्थित हो सकें। बैठक की सूचना अभिभावकों को कुछ दिन पहले भेजनी चाहिए ताकि वे कार्यक्रम के अनुसार समय निकाल सकें।

2. स्थान और वातावरण (Venue and Environment)

बैठक के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करें, जहां सभी को आरामदायक बैठने की व्यवस्था हो। कक्षा का माहौल शांत होना चाहिए जिससे सभी अभिभावक खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

3. संदेश की स्पष्टता (Clarity of Message)

बैठक में चर्चा के लिए मुख्य बिंदुओं को पहले से तय करें। शिक्षार्थियों की प्रगति, उनके व्यवहार, और शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि कोई विशेष मुद्दा है, तो उसे भी शामिल किया जाना चाहिए।

4. समय विभाजन (Time Division)

बैठक का समय प्रभावी तरीके से विभाजित करना महत्वपूर्ण है ताकि हर शिक्षार्थी के अभिभावक के साथ चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल सके तथा सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सके। यह समय विभाजन बैठक को सुव्यवस्थित और लक्ष्य-उन्मुख बनाता है, जिससे किसी भी अभिभावक की चिंताओं को अनदेखा नहीं किया जाता।

उदाहरण: कक्षा 5 की बैठक के लिए समय विभाजन

समय	कक्षा	रोल नंबरों का समूह
9:00 - 9:15	कक्षा 5A	1 से 5
9:15 - 9:30	कक्षा 5A	6 से 10
9:30 - 9:45	कक्षा 5A	11 से 15
9:45 - 10:00	कक्षा 5A	16 से 20
10:00 - 10:15	कक्षा 5A	21 से 25
10:15 - 10:30	कक्षा 5A	26 से 30

5. प्रस्तुति का आयोजन (Organizing the Presentation)

बैठक के दौरान, शिक्षकों को अपने विचार और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक संरचित रूपरेखा बनानी चाहिए। शिक्षकों को स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

6. संवाद की प्रोत्साहना (Encouraging Dialogue)

अभिभावकों को अपने विचार और प्रश्न साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। संवाद का यह खुला मंच अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। शिक्षकों को भी सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है।

7. समापन और फॉलो-अप (Conclusion and Follow-up)

बैठक के अंत में, मुख्य बिंदुओं का सारांश दें और यह सुनिश्चित करें कि सभी अभिभावकों को आवश्यक जानकारी मिल गई है। यदि किसी विषय पर और चर्चा की आवश्यकता है, तो उसके लिए फॉलो-अप की योजना बनाएं।

8. प्रतिपुष्टि प्राप्त करना (Getting Feedback)

बैठक के बाद अभिभावकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करें। इससे आप भविष्य की बैठकों को और बेहतर बना सकते हैं। यह जानकारी सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी कि अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहें।

निष्कर्ष: अभिभावक-शिक्षक बैठक का सफल प्रबंधन शिक्षार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अभिभावक और शिक्षक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह शिक्षार्थियों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक होता है, जो उनके समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

आकलन के बाद अभिभावकों से संवाद

(Interaction with parents post assessments)

आकलन के बाद अभिभावकों से संवाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो न केवल शिक्षार्थियों के विकास में सहायक होती है, बल्कि उनके परिवारों को भी उनके शैक्षणिक और शारीरिक प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह संवाद अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करती है।

1. संवाद का उद्देश्य

आकलन के बाद अभिभावकों से संवाद का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की प्रदर्शन रिपोर्ट साझा करना और उनके सीखने की प्रगति के बारे में जानकारी देना है। इस संवाद के दौरान, शिक्षक अभिभावकों को अवगत कराते हैं कि उनके बच्चों ने आकलन में कैसा प्रदर्शन किया, कौन से कौशलों में वे कुशल हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

2. प्रतिपुष्टि का आदान-प्रदान

शिक्षक अभिभावकों को शिक्षार्थियों के सामर्थ्य और कमजोरियों के बारे में विस्तृत प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षार्थी ने संतुलन गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो शिक्षक इस पर चर्चा करते हैं और सुझाव देते हैं कि वे कैसे अपनी गति को और बेहतर कर सकते हैं। वहीं,

यदि किसी शिक्षार्थी को फुटवर्क में दिक्कत हो रही है, तो शिक्षक अभिभावकों को इसके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की जानकारी से अवगत कराते हैं।

3. सहयोगात्मक दृष्टिकोण

इस संवाद में, अभिभावकों से सुझाव लेना भी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक अभिभावकों से यह पूछ सकते हैं कि वे घर पर किस तरह से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के विकास को और भी समर्थता प्रदान करता है।

4. समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारण

शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के लिए कुछ समय-सीमा और लक्ष्य तय कर सकते हैं। जैसे कि, यदि किसी शिक्षार्थी को अपनी संतुलन क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है, तो वे एक निश्चित अवधि के भीतर कुछ गतिविधियों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।

5. भावनात्मक समर्थन

इस प्रक्रिया का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक समर्थन प्रदान करना है। अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनका बच्चा अपनी क्षमताओं के अनुसार बेहतर कर सकता है। सकारात्मक प्रोत्साहन और समर्थन से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उनकी सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है।

निष्कर्ष

आकलन के बाद अभिभावकों से संवाद केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शिक्षार्थियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संवाद के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षक मिलकर शिक्षार्थियों के लिए एक सहयोगात्मक और प्रेरणादायक वातावरण तैयार कर सकते हैं, जिससे शिक्षार्थियों की शैक्षणिक और शारीरिक प्रगति सुनिश्चित हो सके।

प्रदर्शन मूल्यांकन का स्पष्टीकरण (Explanation of performance evaluation)

प्रदर्शन मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के कौशल, क्षमताओं और ज्ञान के स्तर को मापना है। यह विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा और खेलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां शिक्षार्थियों के शारीरिक प्रदर्शन को विभिन्न गतिविधियों द्वारा आंका जाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि शिक्षार्थी किस स्तर तक उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन के प्रकार

- * **प्रायोगिक मूल्यांकन:** इसमें शिक्षार्थियों की शारीरिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे दौड़ना, कूदना, या विभिन्न खेलों में कौशल का प्रदर्शन।
- * **व्यक्तिगत मूल्यांकन:** इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है, जैसे उनकी ताकत, गति और सहनशक्ति।
- * **समूह मूल्यांकन:** इसमें शिक्षार्थियों के समूह प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि टीम खेलों में सामूहिक सहयोग और तालमेल।

प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया

- * **लक्ष्यों की स्थापना:** पहले से निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट करना।
- * **आंकड़े संग्रहण:** विभिन्न गतिविधियों के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का अवलोकन करना और आवश्यक आंकड़े एकत्रित करना।
- * **विश्लेषण:** एकत्रित डेटा का विश्लेषण करना, ताकि यह समझा जा सके कि शिक्षार्थी किस स्तर पर हैं, और उन्हें किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार की आवश्यकता है।
- * **प्रतिपुष्टि (फीडबैक):** शिक्षार्थियों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया देना, जिससे वे अपनी कमजोरियों को समझ सकें और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित हो सकें।

मूल्यांकन में रुबरिक (Rubrics) का उपयोग

रुबरिक एक विशिष्ट मापदंड होती है, जो मूल्यांकन के मानकों को स्पष्ट करती है। इसमें विभिन्न प्रदर्शन स्तरों के अनुसार मानदंडों का विवरण होता है जैसे कि उच्च, मध्यम और निम्न स्तर पर प्रदर्शन। रुबरिक का उपयोग मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है, जिससे शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही समझ सकते हैं कि प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है।

ग्रेडिंग स्केल

3-स्तरीय ग्रेडिंग स्केल में प्रदर्शन को तीन स्तरों में बाँटा जाता है: उच्च, मध्यम, और निम्न। यह सरल और प्रभावी स्केल है, जो छोटे मूल्यांकन में उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, किसी शारीरिक गतिविधि में 'उत्कृष्ट', 'संतोषजनक', और 'सुधार की आवश्यकता' जैसे स्तरों में आकलन किया जा सकता है।

5-स्तरीय ग्रेडिंग स्केल में प्रदर्शन को पाँच स्तरों में विभाजित किया जाता है, जैसे: उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक, और सुधार की आवश्यकता। यह स्केल अधिक विस्तृत मूल्यांकन में सहायक होता है और विभिन्न क्षमताओं को बेहतर तरीके से मापने में मदद करता है।

निष्कर्ष: प्रदर्शन मूल्यांकन में रुब्रिक और ग्रेडिंग स्केल का उपयोग शिक्षार्थियों को सुधार और विकास के अवसर प्रदान करता है। इससे शिक्षक यह समझ सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी किस स्तर पर है और उन्हें किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है।

विशेष ध्यान देने योग्य शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए कदम (Steps to improve performance of slow learners)

विशेष ध्यान देने योग्य शिक्षार्थियों के लिए प्रदर्शन में सुधार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और रणनीतियों के माध्यम से यह संभव है। यहां कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जो शिक्षकों को विशेष ध्यान देने योग्य शिक्षार्थियों की मदद करने में सहायक हो सकते हैं:

1. व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान (Identifying Individual Needs)

शिक्षकों को प्रत्येक शिक्षार्थी की शैक्षणिक क्षमताओं और सीखने की शैलियों को समझना चाहिए। इसके लिए प्रारंभिक आकलन करना आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस शिक्षार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।

2. सकारात्मक वातावरण बनाना (Creating a Positive Environment)

एक सहायक और प्रोत्साहक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों को यह अहसास/महसूस होना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं और उनकी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है।

3. अनुकूलित शिक्षण विधियाँ (Customized Teaching Methods)

शिक्षकों को विशेष ध्यान देने योग्य शिक्षार्थियों के लिए सरल और प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, दृश्य सामग्री, शैक्षिक खेल, और व्यावहारिक गतिविधियाँ उनकी समझ को बढ़ा सकती हैं।

4. छोटे लक्ष्यों का निर्धारण (Setting Small Goals)

शिक्षार्थियों के लिए छोटे और प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्य उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं और धीरे-धीरे उन्हें उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित करते हैं।

5. नियमित प्रतिक्रिया (Regular Feedback)

शिक्षार्थियों को उनके प्रयासों के लिए नियमित रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सकारात्मक प्रतिक्रिया से शिक्षार्थियों की प्रेरणा बढ़ती है, जबकि निर्माणात्मक प्रतिक्रिया उन्हें सुधारने का अवसर देती है।

6. अतिरिक्त सहायता और संसाधन (Additional Support and Resources)

विशेष ध्यान देने योग्य शिक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्ययन समूह, या विशेष कक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा, शिक्षण सामग्री का उपयोग, जैसे कि पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ डिजिटल संसाधन भी सहायक हो सकते हैं।

7. अभिभावकों की भागीदारी (Involving Parents)

अभिभावकों को भी शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उन्हें उनके बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और घर पर अतिरिक्त अभ्यास के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए।

8. सकारात्मक प्रतिस्पर्धा (Positive Competition)

शिक्षार्थियों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अनुभव कराने के लिए उन्हें छोटे समूहों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे उन्हें एक-दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है और उनकी सामाजिक क्षमताएँ भी विकसित होती हैं।

9. समय प्रबंधन (Time Management)

शिक्षकों को शिक्षार्थियों को यह सिखाना चाहिए कि वे समय का सही प्रबंधन कैसे करें। समय सीमा में कार्य करना, पहले से योजना बनाना, और प्राथमिकताएँ तय करना उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है।

10. निरंतर मूल्यांकन (Continuous Assessment)

शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन करना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रगति को ट्रैक किया जा सके और आवश्यकतानुसार शिक्षण विधियों में बदलाव किया जा सके।



आपातकालीन प्रबंधन

अध्याय

3



सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome):

- * आपातकालीन प्रतिक्रिया के महत्व की पहचान करते हैं।
- * खेल के मैदान में आपात स्थिति को पहचानते व प्रतिक्रिया करते हैं।


इकाई (3): आपातकालीन प्रबंधन

आपातकालीन परिस्थितियों में आपातकालीन प्रबंधन की तकनीकें बाधित हो जाती हैं और तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता होती है ताकि आपातकालीन स्थिति आपदा में न बदले। आपातकालीन परिस्थितियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ (भूकंप, बाढ़), चिकित्सा संबंधी (लू लगना, रक्त स्राव) या मानव निर्मित संकट (दुर्घटना, आग) आदि। आपातकालीन प्रबंधन तत्काल प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है, जो अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करता है, इसके माध्यम से आपात स्थितियों के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response)

किसी अप्रत्याशित स्थिति में, मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो तत्काल कार्यवाही की जाती है, उसे आपातकालीन प्रतिक्रिया कहते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, जिसमें निरंतर योजना, कार्यवाही, मूल्यांकन एवं विश्लेषण सम्मिलित है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य स्थिति का त्वरित आकलन करके क्षति (नुकसान) को कम करना, घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना तथा आवश्यक होने पर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता और महत्व (Need and Importance of Emergency Response)



आपातकालीन प्रतिक्रिया, किसी भी संकटपूर्ण स्थिति में त्वरित तथा प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया, चिकित्सा, पर्यावरण और सुरक्षा की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित हैं-

1. पीड़ित के जीवन की रक्षा करना

गंभीर चोट लगने या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया से व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अचानक दमा का दौरा या हृदयाघात होने पर तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है।

2. चोट की गंभीरता को कम करना

तुरंत और उचित आपातकालीन प्रतिक्रिया से चोट की गंभीरता को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मोच आने पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने से स्थिति को अधिक बिगड़ने से रोका जा सकता है।

3. दीर्घकालीन समस्याओं से बचाव

समय पर आपातकालीन प्रतिक्रिया से हल्की चोट को गंभीर और दीर्घकालिक स्थितियों में विकसित होने से रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क में चोट लगने के तुरंत बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया मिलने से दीर्घकालिक संज्ञात्मक समस्याओं को रोकने में सहायता मिल सकती है।

विभिन्न परिस्थितियों और चोट के उदाहरण (Examples of various conditions and injuries)

लू लगना/ऊष्माघात (Heat Stroke)

जब शरीर का तापमान अत्यधिक (आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक) हो जाता है एवं शरीर उसको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता, उसे ऊष्माघात या लू लगना (हीट स्ट्रोक) कहा जाता है। हीट स्ट्रोक, एक गंभीर चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है जो लंबे समय तक अधिक तापमान के संपर्क में रहने, गर्म और आद्र परिस्थितियों में शारीरिक परिश्रम करने के कारण होती है। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए तो यह हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क तथा अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।

संकेत और लक्षण (Signs and symptoms):

- * शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट (104° F) या 40 डिग्री सेल्सियस (40° C) के बराबर या उससे अधिक होना।
- * मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे- भ्रम, उत्तेजना, बोलने में कठिनाई आदि।
- * शुष्क और गर्म त्वचा या अधिक पसीना आना।
- * अनियमित हृदय दर।
- * उल्टी, घबराहट।
- * श्वसन दर का अनियमित होना।
- * सिर में दर्द होना।
- * मांसपेशियों में ऐंठन।
- * बेहोशी आना।

आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा (Emergency First Aid)

- * प्रभावित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर ले जाएं।
- * व्यक्ति के शरीर को गीले कपड़े से पोंछें और किसी वस्तु या कपड़े से हवा करें।
- * कपड़े या स्पंज को ठंडे पानी में भिगोकर पीड़ित के गले, बगल और पेट के निचले हिस्से पर रखें।
- * प्रभावित व्यक्ति को पीने के लिए ठंडा तरल पदार्थ दें।
- * गंभीर स्थिति में चिकित्सा सेवाओं से संपर्क करें।

एलर्जी (Allergies)

एलर्जी प्रतिक्रिया, एक शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली है जो उस पदार्थ के प्रति होती है जिसे शरीर हानिकारक मान लेता है। फूलों के पराग, कुछ खाद्य पदार्थ, पालतू जानवरों के बाल, कीड़ों के डंक और दवाएँ आदि एलर्जी के कुछ सामान्य कारक हैं। एलर्जी के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं जैसे छींकना, खुजली या गंभीर स्थिति (सांस लेने में कठिनाई) जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है।

एलर्जी के लक्षण (Symptoms of allergy)

- * त्वचा या आंखों में खुजली/ जलन
- * बोलने में कठिनाई
- * गले में सूजन या खराश
- * नाक बहना या बंद होना
- * सांस लेने में कठिनाई
- * पेट में दर्द होना या उल्टी आना
- * लगातार खांसी होना
- * चक्कर आना या बेहोशी

आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response)

- * व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठाये या लिटाएं और निगरानी करें।
- * एनाफिलैक्टिक्स (Anaphylactics) की स्थिति में चिकित्सक की सलाह से तुरंत दवाई दे।
- * गंभीर स्थिति में चिकित्सा सेवाओं से संपर्क करें।

अस्थमा/दमा (Asthma Attacks)

दमा, एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसमें फेफड़ों का वायुमार्ग संकरा हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। किसी व्यक्ति के लिए दमा केवल एक छोटी समस्या हो सकती है किन्तु किसी व्यक्ति के लिए यह एक गंभीर समस्या हो सकती है।

लक्षण (Symptoms)

- * सांस लेने में कठिनाई
- * लगातार खांसी
- * छाती में जकड़न या दर्द
- * अत्यधिक थकान
- * बोलने में कठिनाई

आपातकालीन प्राथमिक उपचार (Emergency First Aid)

- * व्यक्ति को धैर्य रखने के लिए प्रेरित करें।
- * व्यक्ति को सीधे बैठने के लिए कहें, जिससे सांस लेने में आसानी हो।
- * यदि आपके पास रेस्क्यू इनहेलर (ब्रॉन्कोडायलेटर) उपलब्ध है, तो उसे निर्देशित तरीके से उपयोग करें।
- * सांस लेने में आसानी के लिए कपड़ों को ढीला करें।
- * गंभीर स्थिति में चिकित्सा सेवाओं से संपर्क करें।

हृदयाघात (Cardiac Arrest)

कार्डिएक अरेस्ट, एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें व्यक्ति का हृदय अचानक से धड़कना बंद कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय प्रभावी रूप से रक्त पंप नहीं कर पाता। इससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध जाता है तथा व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तुरंत चिकित्सीय सहायता न मिलने की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

लक्षण (Symptoms)

- * अचानक बेहोश हो जाना
- * हृदय की धड़कन रुक जाना
- * सांस न ले पाना

आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency First Aid)

जब किसी व्यक्ति की अचानक हृदयाघात के कारण दिल की धड़कन रुक जाती है, तो उसके जीवन को बचाने के लिए सीपीआर की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। हृदयाघात के तुरंत बाद सीपीआर से व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ जाती है।



सीपीआर (Cardiopulmonary resuscitation) करने की प्रक्रिया:

सीपीआर एक जीवनरक्षक तकनीक है, जिसका उपयोग उन आपात परिस्थितियों में किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक गई हो। सीपीआर करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. चिकित्सा सहायता के लिए एम्बुलेंस से संपर्क करें (Call Ambulance for Medical Help)
 - * यदि व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो आपातकालीन सेवाओं (जैसे 112) से संपर्क करें या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करने के लिए कहें।
2. स्थिति का आकलन करें (Assessment of situation)
 - * यह सुनिश्चित करें कि आपके और पीड़ित के लिए स्थान सुरक्षित है।

- * व्यक्ति के हृदय की धड़कन और श्वास दर की जाँच करें।
- 3. श्वसन मार्ग और श्वास की जाँच करें (Assessment of airway and breathing)**
- * व्यक्ति का सिर थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं ताकि वायुमार्ग खुल सके।
 - * यदि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा तो सीपीआर शुरू करें।
- 4. बचाव के लिए सांसे देना (Rescue breathing)**
- * 30 बार छाती के संकुचन (Compression) के बाद, 2 बार बचाव सांसों (Rescue breathing) दें।
 - * जोर से सांस लें और पीड़ित व्यक्ति के होंठों पर अपने होंठों को मिलते हुए पीड़ित के मुंह में हवा भरे जब तक छाती ऊपर की ओर न उठे।
- 5. छाती का संकुचन (Chest compression)**
- * अपनी एक हथेली को व्यक्ति की छाती के मध्य पर रखें, फिर दूसरी हथेली को पहली हथेली के ऊपर रखें।
 - * अपने हाथों को सीधा रखें और अपने शारीरिक बल का उपयोग करते हुए पीड़ित व्यक्ति की छाती को जोर तथा तेजी से दबाएँ (छाती को न्यूनतम 2 इंच गहरा दबाना, 100-120 संकुचन प्रति मिनट की दर से)।
 - * हर संकुचन के बाद छाती को पूरी तरह से ऊपर की ओर उठने दें।
- 6. सीपीआर जारी रखें (Continue perform CPR until medical help arrives)**
- * 30 बार छाती के संकुचन और 2 बार बचाव सांसों के चक्र (30:2) को जारी रखें।
 - * सीपीआर तब तक जारी रखें जब तक कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ नहीं पहुँचतीं या व्यक्ति जीवन के संकेत नहीं दिखाता (जैसे, सांस लेना, हिलना-डुलना)।

महत्वपूर्ण बिंदु (Important points)

- * यदि आप प्रशिक्षित नहीं हैं या सांसों (मुँह से मुँह मिलाकर) देने में संकोच कर रहे हैं, तो हाथों से ही सीपीआर (केवल छाती की संकुचन) करें।
- * सीपीआर शुरू करने से पहले सहायता के लिए आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें।

- * प्रभावशीलता के लिए उच्च संकुचन दर और दबाव की गहराई बनाए रखें।
- * इन चरणों का पालन करके, आप आपातकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा- उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत (First Aid - Purpose and basic principles)

प्राथमिक चिकित्सा (First Aid)

किसी आपात स्थिति या चोट लगने के उपरांत व्यक्ति को अस्पताल ले जाने या चिकित्सा सहायता के आने से पहले व्यक्ति को दी जाने वाली पहली और तत्काल सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया, सरल उपचार या सहायता है। इसका लक्ष्य जीवन को सुरक्षित करना, स्थिति को अधिक बिगड़ने से रोकना तथा जल्दी ठीक होने को बढ़ावा देना है। प्राथमिक चिकित्सा, दर्द को कम करने और जटिलताओं के जोखिम को घटाने में भी मदद कर सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत

- 1) **जीवन को सुरक्षित करना** : पीड़ित और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए उचित कार्यवाही करें।
- 2) **स्थिति का मूल्यांकन** : पीड़ित की स्थिति की जाँच करें और उचित कार्यवाही करें।
- 3) **सहायता के लिए आपातकालीन सेवाओं से संपर्क** : सहायता के लिए आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करें और उन्हें सटीक जानकारी दें।
- 4) **धैर्य रखें और पीड़ित को आश्वस्त** : पीड़ित का आत्मविश्वास बनाए रखें एवं स्वयं धैर्य रखें ताकि स्थिति का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करने से आपात स्थितियों में एक प्रणालीबद्ध और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

प्राथमिक चिकित्सा में डी.आर.ए.बी.सी. (D.R.A.B.C.)

D - Danger (खतरा)

R - Response (प्रतिक्रिया)

A - Air way (श्वसन मार्ग)

B - Breathing (श्वसन)

C - Circulation (रक्त संचार)

D - Danger (खतरा): प्राथमिक चिकित्सा से पहले किसी भी संभावित खतरे की जाँच करे। उदाहरण के लिए यदि किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान चोट लगती है तो सबसे पहले उसे मैदान से बाहर सुरक्षित जगह पर बैठाए।

R - Response (प्रतिक्रिया): व्यक्ति से बात करने की कोशिश करे और जाँच करे की वह कोई प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं। पीड़ित से ऊँची आवाज़ में और स्पष्ट रूप से बात करने की कोशिश करें ताकि पता चल सके कि वह बोलने पर प्रतिक्रिया दे पा रहा है या नहीं।

A - Air way (श्वसन मार्ग): व्यक्ति की श्वासनली की जाँच करे। कई बार मुँह पर चोट लगने पर खून गले में इकट्ठा होकर जम सकता है, परिणामस्वरूप श्वास नली में रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एक तरफ करवट दिला कर लेटा दें। सीपीआर देने से पहले श्वसन मार्ग का साफ होना अति आवश्यक है।

B - Breathing (श्वसन): अपनी दो उंगलियों (अनामिका और मध्यमा) के पार्श्व भाग को प्रभावित व्यक्ति के नासिका छिद्र के आगे रखें अथवा अपने कान पीड़ित व्यक्ति के मुँह के पास ले जाकर जांचने का प्रयास करे कि वह सांस ले पा रहा है अथवा नहीं। यदि वह सांस नहीं ले रहा हो तो तुरंत मुँह से मुँह मिलाकर बचाव सांस देने की प्रक्रिया प्रारंभ करे।

C - Circulation (रक्त संचार): व्यक्ति की नाड़ी की जाँच करे अथवा व्यक्ति के हृदय पर हाथ रखकर उसकी धड़कन को महसूस करे। यदि हृदय कार्य नहीं कर रहा है तो सीपीआर (CPR) देने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

खेलों में लगने वाली सामान्य चोटें (Basic Sports Injuries): खिलाड़ी अक्सर खेल या अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के दौरान चोटिल हो जाते हैं। खेल में अचानक लगने वाली तथा दीर्घकालिक (समय के साथ विकसित होने वाली) चोटें हो सकती हैं। अचानक लगने वाली चोटें जैसे अस्थि भंग, मोच आना इत्यादि तथा दीर्घकालिक चोटों में टेनिस एल्बो इत्यादि शामिल है। खेल-कूद से होने वाली चोटें कई प्रकार की होती हैं। कुछ सामान्य चोटें निम्नलिखित हैं-

मोच (Sprain): गतिविधि के दौरान जोड़ पर दबाव या खिंचाव पड़ने से आस-पास के स्नायुबंधन (लिगामेंट) खिंच जाते हैं या फट जाते हैं, जिसे मोच कहते हैं।

मोच के लक्षण

* तेज दर्द

- * सूजन
- * त्वचा का रंग परिवर्तित होना
- * अस्थिरता (ऐसा महसूस होना कि आप जोड़ पर भार नहीं डाल सकते या आराम से हिल नहीं सकते)
- * चोटिल अंग की गति कम हो जाना (जोड़ को सामान्य रूप से हिलाने में दर्द होना)

मोच की प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Sprain)

मोच की प्राथमिक चिकित्सा के लिए P.R.I.C.E. पद्धति का पालन करके मोच का उपचार किया जा सकता है।

P - (Protection)- सुरक्षा

सबसे पहले चोटिल व्यक्ति को सुरक्षित करें। यदि खेलते हुए मोच आ जाती है, तो खिलाड़ी को मैदान से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं ताकि चोट और गंभीर न बन पाए।

R - (Rest)- आराम करें

जिस गतिविधि के कारण आपको चोट लगी है, उसे करने से बचें तथा आराम करें।

I - (Ice)- बर्फ

दिन में कई बार, 15 से 20 मिनट के लिए अपनी चोट पर बर्फ द्वारा ठंडी सिकाई करें। बर्फ के पैक को तौलिए या पतले कपड़े में लपेटें ताकि वे सीधे आपकी त्वचा को न छुएँ।

C - (Compression) -संपीड़न/दबाव

सूजन को कम करने में मदद के लिए चोटिल जोड़ के चारों ओर एक लोचदार पट्टी (क्रैब बैंडेज) लपेटें।

E - (Elevation)- ऊँचाई

जितना संभव हो सके चोटिल जोड़ को अपने हृदय के स्तर से ऊपर रखने का प्रयास करें।

खिंचाव (Strain)

मांसपेशी पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण तंतुओं (Tendon) में खिंचाव आ जाता है या तंतु फट जाते हैं, यह स्थिति खिंचाव कहलाती है।

मांसपेशियों में खिंचाव के कारण (Causes of Strain):

मांसपेशियों में खिंचाव तब होता है जब आपकी मांसपेशियों के तंतु फट जाते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण निम्नलिखित हैं:

- * अति प्रयोग : एक ही गतिविधि को अनेकों बार दोहराना
- * स्ट्रेचिंग या वार्मअप न करना : व्यायाम से पहले स्ट्रेचिंग या वार्मअप न करने से मांसपेशियों पर तनाव बढ़ जाता है।
- * लचीलेपन की कमी : यदि आप बहुत लचीले नहीं हैं, तो आपकी मांसपेशियां अधिक सख्त हो जाती हैं, जिससे उनमें खिंचाव आने की संभावना अधिक हो जाती है।

मांसपेशियों में खिंचाव के लक्षण:

- * दर्द/ पीड़ा
- * मांसपेशियों को सामान्य रूप से हिलाने में कठिनाई होना
- * मांसपेशी में कमजोरी
- * सूजन
- * मांसपेशियों में ऐंठन

खिंचाव की प्राथमिक चिकित्सा

खिंचाव की प्राथमिक चिकित्सा के लिए PRICE पद्धति का पालन करके खिंचाव के लक्षणों का उपचार कर सकते हैं। PRICE पद्धति के बारे में पूर्व में इसी अध्याय में वर्णन किया गया है।

प्राथमिक चिकित्सा किट की अवधारणा (Concept of First Aid Kit)

प्राथमिक चिकित्सा किट एक संग्रह है जिसमें आपातकालीन स्थिति में चोट या बीमारी के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करने के लिए तात्कालिक उपचार प्रदान करना है, ताकि पेशेवर चिकित्सा सहायता आने से पूर्व सहायता मिल सके।

शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में एक अच्छी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा किट कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती है। यह चोटों के लिए तात्कालिक प्रतिक्रिया के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे खिलाड़ियों को रक्त स्राव, मोच या खिंचाव जैसी चोटों का त्वरित प्रबंधन मिल सके और जटिलताओं का जोखिम कम हो सके। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है, क्योंकि खिलाड़ियों को यह विश्वास होता है कि प्राथमिक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे वे शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इसके अलावा, यह एक शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य करती है, क्योंकि कक्षाओं में प्राथमिक चिकित्सा किट का उपयोग करने का प्रशिक्षण शामिल किया जा सकता है, जिससे खिलाड़ियों को प्राथमिक उपचार के कौशल सिखाए जा सकते हैं। यह आपातकालीन तैयारी में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षक और कोच किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। अंत में, यह शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का समर्थन करती है, छात्रों को चोटों से जल्दी ठीक होने और गतिविधियों में लौटने के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार, एक

सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा किट शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में सुरक्षा, तात्कालिक देखभाल और सहयोगी शिक्षण वातावरण को बढ़ाती है।



प्रमुख घटक:

1. मूल सामग्री:

- * चिपकने वाली पट्टियां (Adhesive bandages)
- * गॉज पैड (Gauze pads)
- * एंटीसेप्टिक वाइप्स (Antiseptic wipes)
- * त्रिकोणीय पट्टी (Triangular bandage)

2. उपकरण:

- * कैंची (Scissors)
- * चिमटी (Tweezers)
- * डिजिटल थर्मामीटर (digital thermometer)
- * रुई की बॉल (cotton balls or swabs)

- * ठंडे पैक (ice pack)

3. दवाइयां:

- * दर्द निवारक (जैसे इबुप्रोफेन),
- * एंटीहिस्टामाइन
- * जलन क्रीम (Burn ointment)

4. आपातकालीन सामान:

- * सी.पी.आर फेस शील्ड (CPR Face shield)
- * डिस्पोजेबल दस्ताने (gloves)
- * कंबल (Blanket)

5. निर्देश:

- * प्राथमिक चिकित्सा निर्देश पुस्तिका (First Aid manual)

सुरक्षा के लिए क्षेत्र निरीक्षण (Area inspection for safety)

क्षेत्र निरीक्षण का उद्देश्य किसी स्थान का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना है ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके और सभी खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रक्रिया विभिन्न स्थानों, जैसे कार्यस्थल, खेल का मैदान, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान और कार्यक्रम स्थलों में महत्वपूर्ण है। प्रभावी सुरक्षा निरीक्षण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

1. तैयारी:

- * प्रासंगिक सुरक्षा मानकों और नियमों के आधार पर एक चेकलिस्ट विकसित करें।
- * यदि आवश्यक हो, तो विषय विशेषज्ञ के साथ एक टीम तैयार करें।

2. क्षेत्र का निरीक्षण:

- * क्षेत्र का एक व्यापक निरीक्षण करें, स्थितियों का अवलोकन करें।
- * उच्च-जोखिम क्षेत्रों जैसे सीढ़ियाँ, निकास, खेल के मैदान और उपकरणों के स्थानों का अवलोकन करें।

3. खतरों की पहचान:

- * भौतिक खतरों की पहचान करें (जैसे बाधाएँ, दोषपूर्ण उपकरण)।
- * पर्यावरणीय कारकों का आकलन करें (जैसे, प्रकाश, वेंटिलेशन, ध्वनि का स्तर)।
- * मानव-कारकों पर विचार करें (जैसे, कर्मचारियों का व्यवहार, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन)।

4. दस्तावेज़ीकरण:

- * विस्तृत रूप से निष्कर्षों को रिकॉर्ड करें, विशेष खतरों और उनके स्थानों को नोट करें।
- * समस्या क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए चित्र या स्केच का उपयोग करें।

5. मार्गदर्शन :

- * पहचाने गए खतरों को कम करने के लिए कार्यशील मार्गदर्शन प्रदान करें।
- * जोखिम की गंभीरता और संभावित प्रभाव के आधार पर मुद्दों को प्राथमिकता दें।

6. निरीक्षण परिणामों की सूचना:

- * निरीक्षण के परिणामों को संबंधित हितधारकों (कर्मचारी, प्रबंधन, आदि) के साथ साझा करें।
- * सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपुष्टि (फीडबैक) और सतत जागरूकता को प्रोत्साहित करें।

नियमित रूप से सुरक्षा के लिए क्षेत्र निरीक्षण करने से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होता है, बल्कि सभी के लिए समग्र सुरक्षा और कल्याण में भी वृद्धि होती है।

प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रियाकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व (Role and responsibilities of first responder)

एक प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रियाकर्ता आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तात्कालिक देखभाल और समर्थन प्रदान करता है। उसकी मुख्य जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

1. स्थिति का आकलन:

- * स्थिति का आकलन करना और किसी भी खतरे की पहचान करना।
- * घायल या बीमार व्यक्तियों की स्थिति का आकलन करना।

2. तात्कालिक देखभाल:

- * रक्त स्राव, जलन, मोच या फ्रैक्चर जैसी चोट के लिए बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना।
- * हृदयाघात सम्बन्धी आपातकाल में CPR देना।

3. सूचित करना :

- * पेशेवर चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होने पर आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना।
- * तात्कालीन परिस्थिति तथा उठाए गए कदमों के बारे में प्रतिक्रियाकर्ता द्वारा आपातकालीन सेवाप्रदाताओं से स्पष्ट रूप से संवाद करना।

4. दस्तावेजीकरण:

- * घटना के विवरण को रिकॉर्ड करना, जिसमें समय, किए गए कार्य और पीड़ित की स्थिति में परिवर्तन शामिल है।

5. भावनात्मक समर्थन:

- * घायल व्यक्तियों को आश्वासन प्रदान करना, जिससे चिंता को कम करने में मदद मिलती है।

6. तैयारी और रखरखाव:

- * यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक चिकित्सा किट में सभी आवश्यक चीजें होनी चाहिए और नवीन तिथि की होनी चाहिए।
- * प्राथमिक चिकित्सा की नवीन तकनीकों और नियमावली के बारे में अवगत रहना।

7. प्रशिक्षण और शिक्षा:

- * नियमित प्रशिक्षण में भाग लेकर कौशल और ज्ञान को अद्यतित रखना।
- * दूसरों को प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों और आपातकालीन तैयारी के बारे में शिक्षित करना।

इन जिम्मेदारियों को निभाकर, एक प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रियाकर्ता आपात स्थितियों के परिणामों में सुधार करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जरूरतमंदों को तात्कालिक और प्रभावी देखभाल प्रदान की जाए।

प्राथमिक चिकित्सा के लिए समान अवसर (Equal opportunities)

प्राथमिक चिकित्सा में समान अवसर का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, संसाधनों की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करना। समान अवसर सुनिश्चित करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

1. **समावेशिता:** सभी लोगों की प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण तक पहुँच होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले की आयु, लिंग, जाति या क्षमता कुछ भी हो सकती है। इससे एक ऐसा समावेशी वातावरण बनता है जिसमें सभी सदस्य सुरक्षा पहल में भाग ले सकते हैं।
2. **समुदाय की तैयारी:** जब विभिन्न समूहों को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाता है, तो समग्र समुदाय अधिक लचीला बनता है। यह तैयारी आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया समय और प्रभावशीलता को काफी सुधार सकती है।
3. **असमानताओं को कम करना:** प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण की एक समान पहुंच स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने में मदद कर सकती है। व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल से सशक्त करके, हम विभिन्न समुदायों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकते हैं।
4. **जागरूकता और शिक्षा:** प्रशिक्षण के लिए समान अवसर प्रदान करने से प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन तैयारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ती है, जिससे समुदायों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
5. **अनुकूलित प्रशिक्षण:** प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रमों को विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों या विभिन्न भाषाओं का समावेशन किया जाना चाहिए, जिससे सभी लोग प्रभावी ढंग से प्राथमिक चिकित्सा कौशल सीख सकें और इन्हें लागू कर सकें।
6. **संस्थाओं का समर्थन:** सामुदायिक संगठन, स्कूल और कार्यस्थल समान अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि मुफ्त या कम लागत वाले प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण सत्र और संसाधन प्रदान करना।

प्राथमिक चिकित्सा में समान अवसरों को बढ़ावा देकर न केवल व्यक्तियों के कौशल में सुधार करते हैं बल्कि एक सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण करता है, जो आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं।



खेल क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता

अध्याय

4



सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome):

- * खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं।
- * खेल क्षेत्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य का वर्णन करते हैं।

इकाई (4): खेल क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता

परिचय (Introduction)

“बेहतर स्वच्छता से बेहतर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समग्र विकास होता है”

स्वच्छता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है जो खेलकूद और शारीरिक व्यायाम करने वाले किसी भी व्यक्ति

के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेल में स्वच्छता न केवल, शारीरिक व्यायाम की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि खिलाड़ियों के पोषण और उनकी देखभाल के प्रति जागरूकता को भी नई दिशा देता है। यह न केवल खेल प्रदर्शन के लिए बल्कि शारीरिक गतिविधियों के प्रेमियों को बेहतर स्वास्थ्य और अधिक सहनशक्ति प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है।

खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता का रखरखाव (Maintenance of health and hygiene of players)

किसी भी खेल में प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए उचित प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। चाहे इसका आशय अपने शरीर को तैयार करना हो या उपकरणों को बनाए रखना हो, दोनों ही स्थिति में उचित तैयारी आवश्यक है। इस प्रक्रिया में, अपने शरीर और उपकरणों की स्वच्छता बनाये रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संक्रामक रोग खेल वातावरण में आसानी से फैल सकते हैं, विशेषकर संपर्क खेलों में और अधिक उपकरणों का उपयोग करने वाले खेलों में, परन्तु इन संक्रामक रोगों को प्रसारित करने की संभावना को कम करने के लिए सभी खेलों में उचित स्वच्छता आवश्यक है। खेल चिकित्सा सलाहकार समिति (Sports Medicine Advisory Committee) इन मुद्दों को समझती है। यह समिति खेल और चिकित्सा समुदाय, संक्रामक रोगों के जोखिम और उनके नियंत्रण के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश भी तैयार करती है। खेल चिकित्सा सलाहकार समिति द्वारा सुझाए गए कुछ "उचित स्वच्छता नियम" निम्नलिखित हैं:

खिलाड़ियों के लिए उचित स्वच्छता नियम (Proper hygiene rules for players)

1. प्रत्येक अभ्यास या प्रतियोगिता के उपरान्त स्नान करें।
2. अपने व्यक्तिगत साबुन और तौलिया का उपयोग करें और उन्हें दूसरों के साथ साझा न करें, अन्य प्रसाधन सामग्री तो बिलकुल भी साझा न करें। अध्ययनों से पता चला है कि इन वस्तुओं को अन्य एथलीटों के साथ साझा करने पर संक्रामक रोगों का संचरण हो सकता है।
3. पानी की बोतलें साझा न करें क्योंकि बोतल साझा करने से विषाणु (वायरस) और जीवाणु (बैक्टीरिया) का संक्रमण आसानी से फैल सकते हैं।
4. उपकरणों की नियमित रूप से सफाई करें।
5. प्रत्येक अभ्यास के बाद खेल परिधान और सुरक्षा उपकरणों को भी साफ़ करना सुनिश्चित करें।
6. अपने कोच या प्रमाणित प्रशिक्षक द्वारा मूल्यांकन के बिना घर्षण या खुले घावों को अनदेखा न करें। इन्हें स्वच्छ रखना और उचित ड्रेसिंग से ढंकना अनिवार्य है।

7. अभ्यास की शुरुआत में किसी भी संदिग्ध घाव के बारे में अपने कोच या डॉक्टर को सूचित करें। जब तक डॉक्टर द्वारा आपके घाव की जाँच नहीं की जाती है, तब तक अभ्यास या प्रतियोगिता में भाग न लेने पर विचार करें।

सामान्य स्वच्छता और सफाई नियम (General Hygiene and Sanitation Rule)

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि स्वच्छता और सफाई शब्दों के बीच क्या अंतर है। ये दोनों ही स्वास्थ्य से जुड़े हुए शब्द हैं और इनके बिना हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते।

स्वच्छता का संबंध मुख्य रूप से बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने से है, जबकि सफाई का ध्यान मानव अपशिष्ट, जैसे मूत्र और मल, के सुरक्षित निपटान पर केंद्रित होता है। हालाँकि, दोनों का अंतिम उद्देश्य एक स्वस्थ और बीमारी मुक्त संसार का निर्माण करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें प्रतिदिन स्वच्छता और सफाई के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।



स्वच्छता (Hygiene): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्वच्छता का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है क्योंकि यह न केवल बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में, व्यक्तिगत स्वच्छता ने व्यापक स्वीकृति प्राप्त की है, क्योंकि यह रोगों के प्रसार को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। कुछ प्रमुख स्वच्छता आदतें, जो शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकने में सहायक हैं, उनमें नियमित रूप से हाथ धोना, प्रतिदिन स्नान करना और साफ कपड़े पहनना शामिल हैं।



सफाई (Sanitation): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, सफाई का अर्थ है मानव अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन और इसके लिए आवश्यक सेवाएँ तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना। अधिकांश सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों ने दुनिया भर में सफाई के स्तर को बढ़ाने के लिए आधारभूत ढाँचे का विकास किया है। कई शोध बताते हैं कि सफाई की कमी का वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। खतरनाक बीमारियों और संदूषणों को रोकने के लिए सफाई का पालन एक दीर्घकालिक समाधान है। इसके लिए घर से मानव अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

खेलों में स्वच्छता और सफाई से संबंधित सामान्य नियम (General Rules Related to Health and Hygiene in Sports):

सभी खिलाड़ियों को स्वच्छता और सफाई से संबंधित सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। खेलों में स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

- * खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, और पर्याप्त पोषण लेकर इसे बनाए रखना चाहिए।
- * स्वच्छता के नियमों को अपनाने का प्रयास करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
- * प्रतिदिन स्नान करें।
- * अपने अंदर पहनने वाले कपड़ों को (अंडरगारमेंट्स) प्रतिदिन बदलें।
- * अभ्यास या मैच के बाद अपने खेल परिधान को अवश्य साफ करें।
- * समय-समय पर अपने नाखून साफ करें और काटें।
- * अपने उपकरणों की नियमित रूप से सफाई करें।
- * ऐसा कोई कठोर आभूषण, गहना या अंगूठी न पहनें, जिससे चोट लगने या संक्रमण का खतरा हो।
- * व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपना साबुन, तौलिया और ब्रश जैसी चीजें अलग रखें।
- * खांसते या छींकते समय अपने मुँह और नाक को ढकें।

स्वच्छता संबंधी सुझाव (Hygiene Tips)

अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर को साफ और स्वस्थ बनाए रखना। यह न केवल आपको पेट संबंधी बिमारियों, सर्दी-जुकाम, और फ्लू जैसे संक्रमणों से बचाता है, बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। साबुन और पानी से हाथ धोने से हानिकारक कीटाणुओं को खत्म किया जा सकता है, जो बीमारियों का कारण बनते हैं। नियमित स्वच्छता बनाए रखना आपको तथा आपके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी संक्रमणों से सुरक्षित रखने में मदद करता है।

व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी सुझाव (Personal Hygiene Tips):

- * अभ्यास या मैच के बाद नहाने की आदत डालें।
- * शरीर की सफाई प्रतिदिन सुनिश्चित करें।

- * हाथों को आवश्यकता पड़ने पर साबुन और पानी से धोएं।
- * दांतों की सफाई के लिए दिन में दो बार ब्रश करना जरूरी है।
- * खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिशू, रुमाल या हाथ से ढकें।
- * खेल परिधान हमेशा साफ रखें और प्रत्येक अभ्यास या मैच के बाद उन्हें धोएं।

आपको अपने हाथ कब धोने चाहिए? (When should you wash your hands?)




हाथ धोने का सही समय: (Correct timing for washing hands):


- * जब हाथ धूल या गंदगी से गंदे हों।
- * कचरे, गंदी सतहों या दूषित वस्तुओं को छूने के तुरंत बाद।
- * खाना खाने से पहले, बीच में (जैसे खाना सर्व करते समय) और बाद में।
- * नाक साफ करने के या खांसने और छींकने के बाद।
- * पालतू जानवरों या उनके बर्तन को छूने के बाद।
- * बच्चे की नैपी या गंदे कपड़े बदलने के बाद।
- * बीमार व्यक्ति से मिलने या उनकी देखभाल करने से पहले और बाद में।
- * उल्टी, रक्त, शौच (मल त्याग), पेशाब (मूत्र) करने के तुरंत बाद।
- * चीरा लगने या घाव का इलाज करने से पहले, दौरान, और बाद में।

हाथ धोने का सही तरीका (How to wash hands properly)

साबुन और पानी से हाथ धोना (Washing hands with soap and water)

साबुन और पानी से हाथ धोने की प्रक्रिया तब ही करें जब हाथ गंदे दिखाई दें; अन्यथा, अल्कोहल-आधारित हैंड रब का उपयोग करें। साबुन और पानी से हाथ धोने की पूरी प्रक्रिया 40 से 60 सेकंड तक करनी चाहिए। हाथ धोने की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

		
<p>अपने हाथों को साफ, बहते पानी से गीला करें।</p>	<p>अपने हाथों की सभी सतहों पर लगाने के लिए साबुन ले।</p>	<p>अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर साबुन के झाग बनाएँ।</p>
		
<p>दाहिनी हथेली को बाएं हाथ की पिछली तरफ (हथेली के विपरीत) रखें और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर रगड़ें और इसी प्रकार बाएं हाथ से भी इस प्रक्रिया को दोहराये।</p>	<p>अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाकर और उंगलियों को आपस में फंसाकर रगड़े।</p>	<p>अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़कर आपस में फंसा ले और उँगलियों को पीछे की तरफ से रगड़ते हुए साफ़ करें।</p>
		
<p>दाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ कर रगड़े और इसी प्रकार बाएं हाथ से दाएं अंगूठे को साफ़ करें।</p>	<p>दाहिने हाथ की उँगलियों के सिरे को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर घुमाये और इसी प्रकार बाएं हाथ की उँगलियों के सिरे को साफ़ करें।</p>	<p>अपने हाथों को साफ, बहते पानी से अच्छी तरह धोएँ।</p>

		
<p>अपने हाथों को टिशू पेपर या तौलिये से अच्छी तरह सुखाएँ।</p>	<p>नल को तौलिए की सहायता से बंद करें।</p>	<p>आपके हाथ अब सुरक्षित हैं।</p>

अल्कोहल-आधारित (सैनिटाइज़र) हैंड रब (Alcohol-based hand rub)

- * अल्कोहल-आधारित हैंड रब की एक उचित मात्रा अपने हाथों की सभी सतहों पर अच्छी तरह से लगाएँ।
- * अपने हाथों को तब तक रगड़ते रहें जब तक वे पूरी तरह से सूख न जाएं।

खेल सुविधाओं और खेलकूद परिधान का निरीक्षण और रखरखाव (Inspection and maintenance of sports facilities and sports apparel)

खेल प्रशासन में सुविधाएँ और उपकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि इन दोनों की उपस्थिति यह तय करती है कि आप खेल प्रशासक के रूप में अपने कार्य और कर्तव्यों को कितनी कुशलता से निभा सकते हैं। सुविधाओं, उपकरणों, आपूर्तियों और यहाँ तक कि सक्षम खेल कर्मियों की उपलब्धता खेल के समग्र विकास और खेल प्रशासक की भूमिका के लिए बेहद आवश्यक है।

- * **खेल सुविधाएँ (Sports Facilities):** खेल सुविधाएँ स्थिर, अचल, स्थायी और लंबी आयु वाली संरचनाएँ हैं, जिनका उपयोग खेल गतिविधियों में किया जाता है। इन सुविधाओं में प्रशिक्षण केंद्र, व्यायामशालाएँ और स्टेडियम प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये सुविधाएँ विभिन्न खेल गतिविधियों, टूर्नामेंटों और प्रशिक्षण सत्रों की मेज़बानी कर सकती हैं। अधिकांश खेल सुविधाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकतीं, क्योंकि ये स्थिर होती हैं और इनका जीवन काल लंबा होता है। खेल सुविधाएँ दो प्रकार की होती हैं: भीतरी और बाहरी।



- * **भीतरी सुविधाएँ:** वे संरचनाएँ हैं, जिन्हें किसी इमारत के भीतर आसानी से निर्मित या रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपके स्कूल का बहुविषयक हॉल (Multipurpose Hall)।
- * **बाहरी सुविधाएँ:** वे संरचनाएँ हैं, जिन्हें खुले मैदान या बाहरी वातावरण में निर्मित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपके स्कूल का वॉलीबॉल मैदान या खो-खो मैदान।
- * **खेल परिधान (Sports Kit):** खेल परिधान से तात्पर्य उन विशेष वस्त्रों से है जो विभिन्न खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए बनाए जाते हैं। खेल परिधान आमतौर पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और मिश्रणों से निर्मित होते हैं, जिनमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और स्पैन्डेक्स प्रमुख हैं। ये कृत्रिम रेशे हल्के, मजबूत और नमी को सोखने में सक्षम होते हैं, जो इन्हें सक्रीय पहनावा (Active Wear) के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि, कृत्रिम रेशों के स्थान पर पुनः उपयोग और प्राकृतिक रेशों का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
- * **खेलों में निरीक्षण (Inspection in Sports):** खेलों में निरीक्षण का अर्थ खेल के मैदानों, उपकरणों और सुविधाओं की नियमित जांच से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित, संरक्षित और खेलने योग्य हैं।
- * **खेलों में रखरखाव (Maintenance in Sports):** खेल रखरखाव का अर्थ खेल सुविधाओं और उपकरणों को उचित स्थिति में बनाए रखने के लिए किए गए कार्य से है। इसमें खेल के मैदानों, उपकरणों और सुविधाओं की नियमित सफाई, मरम्मत और रखरखाव शामिल हैं।



खेल सुविधाओं और खेलकूद परिधान का निरीक्षण (Inspection of Sports Facilities and Sports Kit)

- * **खेल का मैदान (Sports Ground):** निरीक्षण में खेल की सतह, गोल पोस्ट और आसपास के क्षेत्रों में गड्ढे, मलबे, या असमान क्षेत्रों जैसे खतरों का निरीक्षण किया जाता है। इनका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि खिलाड़ी सुरक्षित रूप से खेल सकें।
- * **खेल उपकरण (Sports Equipment):** निरीक्षण में उपकरण में संभावित क्षति या गिरावट, जैसे ढीले पेंच या जंग की जाँच की जाती है। उपकरण का वार्षिक निरीक्षण आवश्यक है, खासकर उन

जगहों पर जहाँ बच्चे और किशोर खेलते हैं, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

- * **खेल सुविधाएँ (Sports Facilities):** खेल के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते समय सुविधाओं की स्थिरता, गुणवत्ता, संरचना और उचित/आवश्यक उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सुविधाएं खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुसार तैयार और सुरक्षित हों।
- * **सुरक्षा प्रबंधन (Safety Management):** निरीक्षण में नुकसान या क्षति के संभावित स्रोतों की पहचान की जाती है, और भविष्य में होने वाली घटनाओं के जोखिम को कम करने के उपायों पर विचार किया जाता है।
- * **खेल परिधान (Sports Kit):** खेल परिधानों के निरीक्षण में परिधान की सामग्री, आकार और खेल के अनुसार उनकी उपयोगिता की जाँच की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि परिधान खिलाड़ियों की फिटनेस और आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हों।

खेल सुविधाओं और खेल परिधान के रखरखाव के लाभ (Benefits of Maintenance of Sports Facilities and Sports Kit)

- * **सुरक्षा (Safety):** नियमित रखरखाव खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए दुर्घटनाओं और चोट के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसमें खेल की सतहों, उपकरणों, प्राथमिक चिकित्सा किट और अग्निशामक यंत्रों जैसे सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण शामिल है।
- * **प्रदर्शन (Performance):** रखरखाव यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इष्टतम प्रदर्शन के लिए सुविधाएँ अच्छी स्थिति में हों। उदाहरण के लिए, एक अच्छे तरीके से बनाए रखा गया फुटबॉल मैदान समतल सतह प्रदान करेगा, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा।
- * **दीर्घायु (Longevity):** रखरखाव खेल सुविधाओं और उपकरणों की जीवन अवधि को बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, नियमित रखरखाव बोल्टों को ढीला होने से रोकने, केबलों को टूटने से बचाने और जोड़ों को चिकनाई की आवश्यकता से बचाने में सहायक हो सकता है।
- * **उपकरणों का आकर्षण (Attractiveness of Equipment):** रखरखाव खेल सुविधाओं को आकर्षक बनाए रखने में मदद करता है। समय-समय पर सफाई और रंगाई (पेंटिंग) से, खेल सुविधाएँ हमेशा देखने में आकर्षक और मनमोहक बनी रहती हैं।

खेल सुविधाओं और खेल परिधान के लिए रखरखाव सूची/सारणी कैसे बनाएं (How to make a checklist for maintenance of sports facilities and sports kit?)

खेल सुविधाओं और खेल परिधान के लिए रखरखाव सूची/सारणी बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- * **अपनी सभी खेल सुविधाओं की सूची तैयार करें (Prepare a list of all your sports facilities):** सबसे पहले हमें अपनी सभी खेल सुविधाओं की सूची तैयार करनी चाहिए जिनका रखरखाव करना है। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमें किन खेल सुविधाओं का रखरखाव करना है, तब तक हम उनका उचित रखरखाव नहीं कर पाएंगे।
- * **खेल सुविधाओं को प्राथमिकता दें (Prioritize your sports facilities):** खेल सुविधाओं की सूची बनाने के बाद, हमें उन्हें प्राथमिकता देनी होगी कि किन सुविधाओं का रखरखाव पहले किया जाए। कुछ सुविधाओं को निरंतर और अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ को कम।
- * **आदर्श बचाव एवं रखरखाव अंतराल तय करें (Determine the ideal preventive maintenance interval):** कुछ खेल सुविधाओं को बचाव एवं रखरखाव की आवश्यकता होती है और उसे समय-समय पर करना पड़ता है। ऐसे खेल सुविधाओं के लिए आदर्श बचाव एवं रखरखाव का समय अंतराल तय किया जाना चाहिए।
- * **आवर्ती रखरखाव कार्यों की अनुसूची बनाएं (Create a schedule for recurring maintenance tasks):** कई खेल सुविधाओं को आवर्ती रखरखाव की आवश्यकता होती है। ऐसी सुविधाओं के लिए निम्न और उच्च आवर्ती रखरखाव कार्यों की सूची बनानी चाहिए ताकि हम उन्हें समय पर पूरा कर सकें।
- * **अपने अनुसूची की निगरानी करें और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें (Monitor your schedule and generate detailed reports):** अपनी पूरी रखरखाव प्रक्रिया की निगरानी करें और उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें संपूर्ण रखरखाव प्रक्रिया का विवरण हो। जैसे कि कब किस सुविधा की मरम्मत की गई, कब सफाई हुई, और कब निरीक्षण किया गया।

चूँकि खेल उपकरण और सतहें उपयोग, दुरुपयोग और जलवायु के कारण परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए उनका नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण की आवृत्ति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उपकरण की उम्र, उपयोग, सामग्री, और बाहरी कारक जैसे उपयोगकर्ताओं की आयु, जलवायु, आदि। इसमें खेल के मैदान की कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति निरीक्षण शामिल हैं।

उच्च आवृत्ति निरीक्षण मौसम, उपयोग जैसी तेजी से बदलने वाली स्थितियों को संबोधित करने में मदद करते हैं, जिससे खेल सुविधाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, जबकि कम आवृत्ति निरीक्षण टूट-फूट का गहन आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रभावी रखरखाव के लिए दोनों आवश्यक हैं।

कम आवृत्ति निरीक्षण (Low Frequency Inspection): अक्सर तिमाही या अर्ध-वार्षिक रूप से किए जाने वाले कम आवृत्ति निरीक्षण उपकरण और सतह की गहन जांच करते हैं, जिसमें टूट-फूट की जांच की जाती है। इस निरीक्षण के लिए यांत्रिक ज्ञान और खेल उपकरण तथा सतह मानकों के बारे में व्यापक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। निरीक्षण के दौरान या उसके तुरंत बाद, कर्मचारियों को निवारक रखरखाव और मरम्मत करनी चाहिए और निरीक्षण में पाई गई समस्याओं को दूर करने के लिए क्षतिग्रस्त उपकरणों को हटाना चाहिए। इस प्रकार के रखरखाव का एक उदाहरण निरीक्षण के दौरान देखी गई अत्यधिक घिसी हुई चैन को बदलना होगा।

उच्च आवृत्ति निरीक्षण (High Frequency Inspection): सामान्यतः दैनिक या साप्ताहिक रूप से किए जाने वाले उच्च आवृत्ति निरीक्षण, उपयोग, और मौसम के कारण होने वाली लगातार बदलती स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। उच्च आवृत्ति निरीक्षण के दौरान, कर्मचारी खेल के मैदान की स्थितियों की जांच करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं जैसे कि मैदान की सतह की टूट-फूट, गड्ढे, स्वच्छता संबंधी समस्याएं, मैदान पर कचरे और मलबे का होना आदि। यदि कोई खतरा पाया जाता है, तो कर्मचारियों को स्कूल या एजेंसी की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, जैसे कि दस्तावेजीकरण पूरा करना, क्षेत्र को उपयोग से बाहर करना तथा समस्या को ठीक करना।

व्यक्तिगत वस्तुओं और खेल परिधान का निरीक्षण (Inspection of personal items and sports kit)

- * **स्वच्छता (Hygiene):** खिलाड़ी की व्यक्तिगत वस्तुएं, उपकरण और खेल परिधान की स्वच्छता का निरीक्षण करना चाहिए।
- * **खेल के अनुसार (According to sports):** प्रत्येक खेल के उपकरण और खेल परिधान के अपने मानक होते हैं। उसी के आधार पर उनका निरीक्षण होना चाहिए। जैसे कबड्डी खेल में खिलाड़ियों के परिधान ढीले नहीं होने चाहिए।
- * **खेलने योग्य (Playable):** खिलाड़ी की व्यक्तिगत वस्तुएं और खेल परिधान खेलने योग्य हैं या नहीं, इस बात का निरीक्षण करना चाहिए।

- * **गुणवत्ता (Quality):** आज के इस प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धी युग में गुणवत्ता का खेल की दुनिया में बहुत अहम भूमिका है। इसलिए खिलाड़ी के व्यक्तिगत वस्तुओं और खेल परिधानों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना चाहिए।

खेल क्षेत्र में स्वच्छता का रखरखाव (Maintenance of Hygiene in Play Area)

- * **मैदान की रखरखाव समिति का गठन करें (Forming a Grounds Maintenance Committee):** मैदान के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो समस्याओं की जाँच करने और रखरखाव का संचालन करने के लिए जिम्मेदार हो और जो मैदान रखरखाव से सम्बंधित सभी निर्णय लेने में सक्षम हो।
- * **नियमित उपकरण निरीक्षण करें (Perform Regular Equipment Inspections):** खेल के मैदान का नियमित निरीक्षण, उपकरणों का भलीभांति रखरखाव और उनके लम्बे समय तक उपयोग और संभावित खतरों की पहचान करने में मदद करता है। जब खेल का मैदान लगातार उपयोग में हो, तो कर्मचारियों को साप्ताहिक रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अधिक विस्तृत निरीक्षण और रिपोर्ट के लिए साल में कुछ बार पेशेवर निरीक्षकों को शामिल करें। खेल के मैदान की सामान्य टूट-फूट, उपकरण क्षति, बर्बरता के संकेत, कूड़ा और मलबा की स्थिति का निरीक्षण करवाएँ। निरीक्षण की अनुसूची तैयार करने से यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और उपकरणों का उपयोग सुरक्षित है।
- * **प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के लिए एक व्यवस्था स्थापित करें (Establish a System for Reporting):** छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को यह जानना चाहिए कि खेल के उपकरण या सामान्य खेल क्षेत्र में किसी भी समस्या की पहचान कैसे करें और उसकी रिपोर्ट कैसे करें। स्कूल में एक केंद्रीय प्रणाली होनी चाहिए ताकि कोई भी समस्या तुरंत हल की जा सके। इसे कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों के लिए सरल बनाना चाहिए, ताकि वे समस्याओं की सूचना सही व्यक्ति तक पहुँचाएँ।
- * **बाड़ और सुरक्षात्मक अवरोध स्थापित करें (Install Fences and Protective Barriers):** स्कूल का खेल मैदान छात्रों के सीखने और गतिविधि करने के लिए है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अन्य इसका उपयोग न करे और संभावित रूप से नुकसान न पहुँचाए। बाड़ और गेट जैसे अवरोधों या अलार्म सिस्टम की स्थापना से रखरखाव के कार्य आसानी से किए जा सकते हैं और क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।

- * **स्थानीय मौसम की जानकारी (Local Weather Information):** यदि आप नमी वाले स्थान में रहते हैं, तो आपको खेल सुविधाओं में लगाई गई लकड़ी को सड़न से बचने के लिए उनकी संरचनाओं का उपचार करना या धातु के विकल्पों का चयन करना चाहिए। यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ अधिक सर्दियाँ होती हैं, तो खेल मैदानों और उपकरणों पर बर्फ जम जाती है, जिससे खेल मैदान पर फिसलकर चोट लगने और उपकरणों के खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिए समय समय पर खेल मैदानों और उपकरणों से बर्फ को हटा देना चाहिए।
- * **समयानुसार मैदान के उपकरणों की मरम्मत करवाएँ (Ground Equipment Should Be Repaired Timely):** खेल के मैदान के उपकरणों की समय पर मरम्मत से छोटी समस्याओं को बड़ी समस्याओं में बदलने से रोका जा सकता है। टूट-फूट, जंग लगे हिस्से, ढीले पेंच, खराब प्लग और ढीली वायरिंग की पहचान करें और इन्हें शीघ्र ठीक करवाएँ। हमेशा मरम्मत की गंभीरता का आकलन करें ताकि यह तय किया जा सके कि किन भागों को मरम्मत या बदलने की आवश्यकता है। यदि व्यापक मरम्मत की आवश्यकता हो, तो खेल के मैदान को मरम्मत तक बंद किया जाना चाहिए।

स्कूल के खेल के मैदानों की सफ़ाई कैसे करें? (How to clean school playgrounds?)

खेल के मैदान को साफ़ और सुरक्षित रखना रख-रखाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्रों की चोट या संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए ऊपर सूचीबद्ध रखरखाव चरणों और निम्नलिखित सफ़ाई दिशानिर्देशों पर ध्यान दें।

- * **बुनियादी सफ़ाई (Basic Cleaning):** खेल के मैदान के उपकरणों के लिए सुरक्षित और पर्यावरण मित्र गैर विषैले सफ़ाई उत्पादों का उपयोग करें ताकि नियमित रूप से उपकरण की सतहों से गंदगी, मलबा, ग्रीस और अन्य दूषित पदार्थों को हटाया जा सके। छात्रों को कीटाणुओं, गंदगी और अन्य पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए रेलिंग, ग्रैब बार और खेल के मैदान की संरचनाओं जैसी संपर्क सतहों को नियमित रूप से साफ़ करें।
- * **गहरी सफ़ाई (Deep Cleaning):** गर्मियों और अन्य स्कूल की छुट्टियों के दौरान खेल के मैदान के लिए सुरक्षित और गहरे सफ़ाई वाले गैर विषैले उत्पाद से गहरी सफ़ाई करें ताकि जमी हुई गंदगी और मलबा हटाया जा सके। स्कूल के सत्र के दौरान उपकरणों को व्यापक उपयोग के लिए तैयार किया जा सके।

बहु विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) - 1 marks

1. शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है-
 - (a) केवल शारीरिक व्यायाम कराना
 - (b) अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व कौशल विकसित करना
 - (c) केवल खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित करना
 - (d) केवल शरीर सौष्ठव (बॉडी बिल्डिंग) को बढ़ावा देना
2. खेल प्रतियोगिताएँ व्यक्ति में विकसित करती हैं-
 - (a) आत्मनिर्भरता
 - (b) परिश्रम और समर्पण
 - (c) नेतृत्व और टीम भावना
 - (d) उपरोक्त सभी
3. निम्नलिखित में से खेल के क्षेत्र में करियर विकल्प नहीं है-
 - (a) खेल प्रशिक्षक
 - (b) डॉक्टर
 - (c) खेल प्रबंधक
 - (d) खेल पत्रकार
4. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, शारीरिक गतिविधि उत्पन्न होती है-
 - (a) मानसिक सोच
 - (b) कंकाल की मांसपेशियों की हलचल से
 - (c) केवल खेल प्रतियोगिता से
 - (d) भोजन के उपभोग से

- उत्तर:
1. (b) अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व कौशल विकसित करना
 2. (d) उपरोक्त सभी
 3. (b) डॉक्टर
 4. (b) कंकाल की मांसपेशियों की हलचल से

लघु उत्तर (Short Answer Type Questions) - 2 अंक प्रत्येक

1. शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
2. शारीरिक शिक्षा सहायक का क्या कार्य है?

3. खेलों के माध्यम से विकसित होने वाले जीवन कौशलो के नाम लिखिए।
4. खेल प्रबंधन (Sports Management) से आप क्या समझते हैं?
5. मनोरंजक खेलों (Recreational Games) के उद्देश्य लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions) 4 अंक प्रत्येक

1. शारीरिक गतिविधि, गेम, स्पोर्ट्स और मनोरंजन में क्या अंतर है?
2. शारीरिक शिक्षा और खेल का व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा करें।
3. खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में शारीरिक शिक्षा सहायक की क्या भूमिका होती है?
4. टीम स्पोर्ट्स के क्या लाभ हैं?
5. खेलों से आत्म-अनुशासन और समय प्रबंधन का विकास कैसे होता है? चर्चा करें।

इकाई 2: विद्यार्थियों का आकलन

बहु विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) - 1 अंक प्रत्येक

1. आकलन का मुख्य उद्देश्य है-

(a) केवल अंक देना	(b) शिक्षार्थी की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना
(c) पाठ्यक्रम समाप्त करना	(d) केवल परीक्षा आयोजित करना
2. निम्नलिखित में से आकलन का प्रकार नहीं है-

(a) स्व-आकलन	(b) सहपाठी आकलन
(c) शिक्षक का अवलोकन	(d) वार्षिक परीक्षा
3. आकलन और मूल्यांकन के बीच मुख्य अंतर है-

(a) आकलन निरंतर प्रक्रिया होती है, जबकि मूल्यांकन अंतिम निर्णय प्रदान करता है
(b) आकलन केवल परीक्षाओं पर आधारित होता है
(c) मूल्यांकन शिक्षार्थी की रुचियों पर आधारित होता है
(d) आकलन केवल शिक्षक द्वारा किया जाता है

4. गुणात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य होता है-
- (a) केवल संख्यात्मक आकड़ें एकत्र करना
 - (b) शिक्षार्थी की समझ और व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करना
 - (c) केवल ग्रेड और अंक देना
 - (d) केवल परीक्षा परिणाम देखना

उत्तर:

1. (b) शिक्षार्थी की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना,
2. (d) वार्षिक परीक्षा
3. (a) आकलन निरंतर प्रक्रिया होती है, जबकि मूल्यांकन अंतिम निर्णय प्रदान करता है,
4. (b) शिक्षार्थी की समझ और व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करना

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) 2 अंक प्रत्येक

1. स्व-आकलन से शिक्षार्थियों को क्या लाभ होता है?
2. सहपाठी आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है?
3. मूल्यांकन के दो प्रकार कौन-कौन से हैं?
4. आकलन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन-कौन से हैं?
5. रुब्रिक (Rubric) से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions) 4 अंक प्रत्येक

1. गुणात्मक आकलन और मात्रात्मक आकलन में क्या अंतर है?
2. आकलन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक किन-किन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं?
3. शारीरिक शिक्षा में शिक्षक अवलोकन (Teacher Observation) क्यों महत्वपूर्ण है?

इकाई 3: आपातकालीन प्रबंधन (Emergency Response)

बहु विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) - 1 अंक प्रत्येक

प्र 1. मोच संबंधित है-

- a) हड्डी टूटना
- b) जोड़ के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव
- c) स्नायुबंधन (Ligament) में खिंचाव या फटना
- d) त्वचा में जलन

प्र 2. सीपीआर (CPR) देने का मुख्य उद्देश्य है-

- a) हड्डी टूटने पर राहत देना
- b) हृदयगति और श्वसन बंद होने पर जीवन बचाना
- c) सिरदर्द का इलाज करना
- d) रक्तचाप कम करना

प्र 3. एलर्जी होती है-

- a) बैक्टीरिया और वायरस
- b) शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिसंवेदनशील प्रतिक्रिया
- c) हड्डियों की कमजोरी
- d) अत्यधिक पानी पीने से

प्र 4. लू से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका है-

- a) धूप में अधिक समय बिताना
- b) पर्याप्त पानी पीना और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना
- c) अधिक तली-भुनी चीजें खाना
- d) गर्मी के मौसम में दोपहर में बाहर घूमना

प्र 5. अस्थमा रोग संबंधित है-

- a) हृदय
- b) फेफड़े
- c) यकृत (लिवर)
- d) गुर्दे (किडनी)

1. (c) स्नायुबंधन (Ligament) में खिंचाव या फटना
2. (b) हृदयगति और श्वसन बंद होने पर जीवन बचाना
3. (b) शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिसंवेदनशील प्रतिक्रिया

4. (b) पर्याप्त पानी पीना और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना

5. (b) फेफड़े

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) - 2 अंक प्रत्येक

प्रश्न: 1. मोच (Sprain) क्या होती है, और यह किन कारणों से होती है?

प्रश्न: 2. अस्थमा (Asthma) क्या है? यह किन कारणों से होता है?

प्रश्न: 3. लू (Heat Stroke) क्या है? यह किन कारणों से होती है?

प्रश्न: 4. प्राथमिक उपचार (First Aid) से आप क्या समझते हैं और यह क्यों आवश्यक है?

प्रश्न: 5. प्राथमिक उपचारकर्ता (First Aid Responder) की भूमिका क्या होती है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions) 4 अंक प्रत्येक

प्रश्न: 1. लू (Heat Stroke) से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, लक्षण और प्राथमिक उपचार क्या हैं?

प्रश्न 2. हृदयगति रुकना (Cardiac Arrest) को स्पष्ट कीजिए, इसके लक्षण एवं सीपीआर (CPR) की प्रक्रिया का वर्णन करें।

प्रश्न: 3. आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) का क्या अर्थ है? और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रश्न: 4. मोच (Sprain) और खिंचाव (Strain) से आप क्या समझते हैं? इनके कारण, लक्षण और प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिभावक-शिक्षक बैठक का क्या महत्व है?

प्रश्न 6. समग्र मूल्यांकन (Summative Evaluation) और रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) में अंतर स्पष्ट करें।

इकाई 4: बहु विकल्पीय प्रश्न

(Multiple Choice Questions) 1 अंक प्रत्येक

प्र-1: S.M.A.C. का पूरा नाम है-

(a) खेल चिकित्सा सलाहकार समिति (Sports Medicine Advisory Committee)

- (b) खेल चिकित्सा सलाह परिषद (Sports Medicine Advice Council)
- (c) खेल चिकित्सा सलाह समिति (Sports Medicine Advice Committee)
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र 2: निम्नलिखित कार्य सफाई से संबंधित है।

- (a) हाथ धोना
- (b) स्नान करना
- (c) कपड़े धोना
- (d) मानव अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान करना

प्र 3: साबुन से हाथ धोने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने समय सीमा तय की है।

- (a) 20 से 30 सेकंड
- (b) 40 से 50 सेकंड
- (c) 40 से 60 सेकंड
- (d) 30 से 50 सेकंड

उत्तर:

1. (a) खेल चिकित्सा सलाहकार समिति (Sports Medicine Advisory Committee)
2. (d) मानव अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान करना
3. (c) 40 से 60 सेकंड

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) - 2 अंक प्रत्येक

प्र-1 : स्वच्छता को परिभाषित करें।

प्र-2 : सफाई को परिभाषित करें।

प्र-3 : खेल सुविधाओं और खेल परिधान के अंतर्गत निरीक्षण की गई चार चीजों को सूचीबद्ध करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions) - 4 अंक प्रत्येक

प्र-1 : स्कूल के खेल मैदान की सफाई कैसे करें?

प्र-2 : खेल सुविधाओं और खेल परिधान के रखरखाव के लिए सूची कैसे बनाएं?

प्र-3 : खेल सुविधाओं और खेल परिधान के रखरखाव के कोई तीन लाभ बताइए।



SCERT DELHI

नोट : इस पुस्तक में प्रयुक्त सामग्री एवं चित्र पूर्णतः शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं, किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं।



स्वाध्यायान्मा प्रमदः

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली
वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025